



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 1—जनवरी 7, 2005 (पौष 11, 1926)  
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1—JANUARY 7, 2005 (PAUSA 11, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग III—खण्ड 4

#### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं।  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक  
सरकारी और बैंक लेखा विभाग  
केन्द्रीय कार्यालय  
मुंबई, दिनांक 10 दिसम्बर 2004

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ. (8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली 1946 के नियम 18 के अनुसरण, अक्टूबर 2004 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400 008 को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

#### सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6

नई दिल्ली सर्कल

4 3/4% एन.डी. ऋण 1972

डी.एच. 000054	रु. 10,000/-	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	08/11/65	राम रतन इण्टर कालेज, बिलारी	पी.डी.ओ./डी.टी/एल.एन.2/2004 दिनांक 12.10.2004
---------------	--------------	----------------------	----------	-----------------------------	--

1	2	3	4	5	6
डी.एच. 000054	रु. 10,000/-	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	08/11/65	राम रतन इण्टर कालेज, बिलासरी	पी.डी.ओ./डी.टी/एल.एन.2/2004 दिनांक 12.10.2004

मुंबई-भायखला सर्कल  
9% राहत बंधपत्र 1999 (डीमेट)

बी.सी.एन. 012299 (जीपीएच)	रु. 6,00,000/-	धर्मचंद मेहता (मृत)	11.12.1999	पुष्पा मेहता	06.25.84 3.12.2003
------------------------------	----------------	---------------------	------------	--------------	-----------------------

कानपुर सर्कल  
राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बन्ध 1980

के.एन. 000306 "ए" सीरीज वचन पत्र	49 ग्राम	निर्मल असीजा	01.11.1965 निर्मला असीजा	महा प्रबंधक के आदेश दिनांक 26.10.04 डायरी सं. आई. आर/824/8/दिनांक 26.10.2004
-------------------------------------	----------	--------------	-----------------------------	--

ए. एस. मोहिनानी  
सहायक प्रबंधक

सूची "ख"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6

मुंबई, भायखला सर्कल  
10% राहत बंधपत्र 1995

बीसी 14074 (जीपीएच)	रु. 50,000/-	शोभना महेश्वर खरे चारुशीला अजीत शेते	5.9.1998	शोभना महेश्वर खरे चारुशीला अजीत शेते	06.25.85 21.2.2004
------------------------	--------------	---	----------	---	-----------------------

कोलकाता सर्कल  
9% राहत बंध 1999

सीए 001535 (जीपीसी)	रु. 30,000/-	डॉ. दीपक कुमार घोष प्रेमा घोष शतरुपा घोष	डॉ. दीपक कुमार घोष प्रेमा घोष शतरुपा घोष	फाइल सं. आई 2556 महाप्रबंधक का दिनांक 14.9.2004 का आदेश एलसीओ सं. 46/04.05 दिनांक 4.10.2004
------------------------	--------------	--	--	---

10% राहत बंधपत्र 1995

सीए 001311 (जीपीएनसी)	रु. 2,00,000/-	सुरत कुमार दास (मृत) सूस्मिता दास	01.10.1997 से 20.8.2001	सूस्मिता दास	फाइल सं. आई-2555 महाप्रबंधक का दिनांक 14.9.2004 का आदेश एलसीओ सं. 47/04.05 दिनांक 4.10.2004
--------------------------	----------------	--------------------------------------	-------------------------------	--------------	---

नई दिल्ली सर्कल  
9% राहत पत्र, 1999

डी.एच. 001780	रु. 25,000/-	वी.एम. सक्सेना	वी.एम. सक्सेना	पी.डी.ओ./डी.टी/एल.एन./3/2004 दिनांक 02.08.2004
---------------	--------------	----------------	----------------	---

मुंबई (फोर्ट) सर्कल  
नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉण्ड 1980 "बी" सीरीज

बी.वाई. 014051	826 ग्राम स्वर्ण	यशवंत एन. शाह(मृत)	10वां साल	राजेन्द्र वाय. शाह	महाप्रबंधक के दिनांक 5.8.2004 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं. 77 दिनांक 6.8.2004
बी.वाई. 014052	125 ग्राम स्वर्ण	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

ए. एस. मोहिनानी  
सहायक प्रबंधक

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 2004

सं. यू-16/53/99 (राजस्थान) चिकित्सा शाखा-2 : —कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम-1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डॉ. महेश चन्द्र सनाढ्य को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर 6.7.2004 से 5.7.2005 तक या पूर्णकालिक चिकित्सा निदेशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त, राजस्थान द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संप्रति होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

डॉ. कमलेश कालरा  
चिकित्सा आयुक्त

## क्षेत्रीय कार्यालय महाराष्ट्र

मुंबई-400013, दिनांक 7 दिसम्बर 2004

सं. 31-व्ही-34-11/स्था-सं./समन्वय एकक एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-ए-1 के अधीन सोलापुर क्षेत्र के लिए इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 31-व्ही-34-11 (57)। समन्वय एकक दिनांक 17/09/89 द्वारा गठित स्थानीय समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। इनकी सदस्यता इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

## अध्यक्ष

विनियम 10-ए-1(ए) के अन्तर्गत

1. सहायक श्रम आयुक्त  
सोलापुर।

विनियम 10-ए-1 (बी) के अन्तर्गत

2. सरकारी श्रम अधिकारी, सोलापुर,  
सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय।  
52-ए--रेल लाईन, सोलापुर

विनियम 10-ए-1 (सी) के अन्तर्गत

3. वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, पुणे।

## 4. वैद्यकीय अधीक्षक

क. रा. बी. अस्पताल, पुणे।

विनियम 10-ए-1 (डी) के अन्तर्गत

5. श्री अरविन्द बालकृष्ण कुलकर्णी  
फैक्ट्री मैनेजर,  
जाम मिल्स कंपनी लिमिटेड,  
फतेचंद दामानीनगर, स्टेशन रोड,  
सोलापुर-413001।
6. श्री पांडुरंग नागप्पा दासरी,  
मिल प्रबंधक,  
नर सिंग गिरजी मिल्स,  
सोलापुर।
7. श्री जयकुमार कलशुंडा पाटील  
इंडस्ट्रियल इस्टेट, होटगी रोड,  
सोलापुर।
8. श्री सिद्धाम अप्पा नरसय्या चिलखा,  
दत्तनगर, सोलापुर।

विनियम 10-ए-1 (इ) के अन्तर्गत

9. श्री शत्रुघ्न तुकाराम चटर्जी,  
जुनी मिल चाल मकान नं. 2904,  
मुरारजी पेठ, सोलापुर।
10. श्री दिपक अंबादास सालुंके,  
14, रेल लाईन, भय्या चौक,  
सोलापुर।
11. श्री भारत सिद्धाम कापसे,  
विडी परकुल, सोलापुर।
12. श्री प्रकाश वामन पाटील,  
होटगी रोड, एन.जी. मिल कालोनी,  
सोलापुर।

विनियम 10-ए-1 (एफ) के अन्तर्गत

13. प्रबंधक  
शाखा कार्यालय सोलापुर,  
क. रा. बी. निगम।

आदेशानुसार

ए. के. सिन्हा  
अपर आयुक्त

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)  
नई दिल्ली-110066

सं. के. भ. नि. आ. 1(4)/2136/04/जीजे/

साठआठ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के 1952 का 19 के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जाये।

क्र.सं०	कोड सं०	स्थापनाओं का नाम	स्थापित एवं सहमति की तिथि
1.	जीजे/एसआरटी/ 33160	मे० श्री मधी विमा नागरिक दिव्याम मुंडली लि०	01.04.03 01.04.03
2.	जीजे/एसआरटी/ 33350	मे० मार्किट आटो सेक्टर	01.12.03 01.12.03
3.	जीजे/एसआरटी/ 33241	मे० एक्स डीविस्तमेन कोन्सो तर्वित सिक्वोट्री लि०	08.10.03 08.10.03
4.	जीजे/एसआरटी/ 33443	मे० के. ए. एस. डिस्ट्रीब्यूटरस	05.04.04 05.04.04
5.	जीजे/एसआरटी/ 33450	मे० विद्युत उतकाश सहकारी मंडली लि०	26.04.04 26.04.04
6.	जीजे/एसआरटी/ 33354	मे० जे. सी. मशीनरी प्रा० लि०	01.12.03 01.12.03

अतः अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं स्थापनाओं पर उस या उसी प्रमाणी तिथि से अधिनियम को लागू करते है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

एस. आर. जोशी  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)

सं. के. भ. नि. आ. 1(4)/2143/2004/एमएच

तःआओ केन्द्रीय मविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी मविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के 1952 का 19 के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जाये।

क्र.सं.	कोड सं.	स्थापनाओं का नाम	स्थापित एवं सहमति की तिथि	तिथि
1.	महा/46948	मे० ओआसीस तिमपीग प्रा०लि०	01.01.04	01.01.04
2.	महा/47045	मे० हिन्दुस्थान इन्सिड्यूट	01.04.04	01.04.04
3.	महा/105209	मे० पीआईएसई मेन्पेकुचरत	10.03.03	10.03.03
4.	महा/52160	मे० परिश्रम मोगश्वरिया धनकाम माजारिच उद्योगिक सहकारी संस्था लि०	16.08.03	16.08.03
5.	महा/52249	मे० तन्त बाबा हरदत्त नगरी	01.12.03	21.11.03
6.	महा/52161	मे० डी.पी.पी. सर्वित	19.08.03	19.08.03
7.	महा/52261	मे० बगलान तालुक विवध व्यवसायिक सहकारी लि०	01.12.03	24.11.03
8.	महा/52228	मे० अलोलि तालुक शिक्षक एण्ड शिक्षकतर कर्मचारी ग्रामीण बिगार सेती सहकारी पथ संस्था मर्यादित	16.10.03	16.10.03
9.	महा/46188	मे० टोगी पेन्टर	01.07.02	01.07.02
10.	महा/45972	मे० सि बर्ड सुरविया प्रा०लि०	01.04.02	01.04.02
11.	महा/45717	मे० रोअन इन्टरप्राईसिस	01.07.01	01.07.01
12.	महा/एनके/52194	मे० निता विन्ड इन्डस्ट्रिज	19.09.03	19.09.03
13.	महा/एबी/81461	मे० तिरार्थ तिकाकिटसेली तिक्योद्री गार्ड	02.02.04	02.02.04
14.	महा/एबी/81412	मे० महात्मा फेज मोगश्वरिया कर्मचारी संघ	14.12.03	14.12.03
15.	महा/एबी/81413	मे० संस्थान अनुदानित सेहला कर्मचारी कल्याण सहकारी पथ संस्था लि०	14.12.03	14.12.03
16.	महा/एबी/81399	मे० निशी जेन बाबा हामल को-ओ सोसाईटी	13.11.03	13.11.03
17.	महा/एबी/81484	मे० दीनदयाल रितर्च इन्सटिट्यूट कृषि विज्ञान केन्द्र	22.03.04	22.03.04
18.	महा/61942	मे० ओडिनेस फेक्टररी कन्जुमर को-ओ सोसाईटी लि०	13.01.97	13.01.97

19	महा/46791	मे० नेक्सपरो सलोसन	01.08.03	01.08.03
20	महा/46167	मे० वीरज्ञान ट्रान्सफार्मर इन्डिया प्रा. लि.	02.05.02	02.05.02
21	महा/47127	मे० स्टेरिलिज्ड स्वतपोट	01.04.04	01.04.04
22	महा/46784	मे० ग्राफ इन्टरप्रासिड इन्डिया प्रा. लि.	01.09.03	01.09.03
23	महा/52248	मे० श्रीराम इन्डस्ट्रिज	01.12.03	18.11.03
24	महा/एनके/52407	मे० परसा टूल प्रा. लि.	16.05.04	06.05.04
25	महा/52232	मे० रोहिन इन्जिनियर संड कोन्टेक्टर	10.11.03	10.11.03
26	महा/47053	मे० पराजन लोजिस्ट	01.03.04	01.03.04
27	महा/51983	मे० निपाद सहकार कामगर समा	07.02.03	07.02.03
28	महा/51889	मे० एम. वाई. इन्जिनियर प्रा. लि.	10.07.02	10.07.02
29	महा/52382	मे० दि नेवी पत अरबन को-ओ के. तो. लि.	01.04.04	01.04.04
30	महा/52363	मे० विजय नागरी सहकारी पतसस्था मर्यादित	04.04.04	04.04.04
31	महा/एनके/52438	मे० युनिवर्सल साइकल कोरपोरेशन	16.06.04	16.06.04
32	महा/एनके/52216	मे० श्री महावीर नगरी सहकारी पतसस्था मर्यादित.	01.10.03	26.09.03
33	महा/एबी/81348	मे० महोदया टेबल सिड प्रा. लि.	09.08.03	09.08.03
34	महा/105326	मे० इन्दिरा ब्रिक् बहिला नागरी सह. के.	28.06.04	28.06.04
35	महा/105339	मे० एस. एस. कार इन्जिनियर संड कोन्टेक्टर	26.07.04	26.07.04
36	महा/46209	मे० मास्टर कम्प्युटर सर्विस	01.07.02	01.07.02
37	महा/46396	मे० सन इन्डस्ट्रियल इस्टेट प्रोमिस कोन्सो. सांसार्वटी लि.	01.07.03	01.07.03
38	महा/52424	मे० राजा हरिश्चन्द्रा ग्रामीण बिगार सेती सहकारी पतसस्था मर्यादित	01.06.04	29.05.04
39	महा/47138	मे० श्री रीधी सिधी सहकारी पतसस्था मर्या.	01.04.04	01.04.04
40	महा/51911	मे० बी. ए. लोजिस्ट	12.04.02	01.04.02
41	महा/46639	मे० भारत एक्टिवेशन	12.06.03	12.06.03
42	महा/47143	मे० जय राम प्रिन्ट आर्ट	01.04.04	01.04.04
43	महा/46292	मे० श्री सिद्धीविनायक नर्सरी	01.04.02	01.04.02

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

एस. आर. जोशी  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)

दिनांक 13 दिसम्बर 2004

सं. के. भ. नि. आ. 1(4)/2146/04/केआर/65625

**सूचना** केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोजता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 19 के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जाये।

क्र.सं.	कोड सं.	स्थापनाओं का नाम	व्याप्ति एवं तत्प्राप्ति की तिथि
1.	केआर/15175	मे० एलिपी को-ओ. स्विनिंग मिल्स लि०	09.11.95 09.11.95
2.	केआर/16857	मे० कृष्ण ज्योति इंग्लिशमीडियम स्कूल	01.01.04 29.12.03
3.	केआर/16933	मे० केनोजियन कोनेवेंट नर्सरी स्कूल	01.06.04 31.05.04
4.	केआर/16934	मे० मेकस वेल्थ कैपिटल सर्विस प्रा. लि.	02.06.04 02.06.04
5.	केआर/19639	मे० होली ट्रिनिटी स्कूल	01.02.03 01.02.03
6.	केआर/16512	मे० एन. एन. डी. पी. योगम ओफिस	21.10.99 21.10.99
7.	केआर/केके/17809	मे० वायर नेट इन्डिया	01.10.03 17.09.03
8.	केआर/केएनआर/18248	मे० धनवान धारी सेन्टर केतर मोड	08.07.04 08.07.04
9.	केआर/केसी/19323	मे० थिराकम फुड्स	01.03.99 01.03.99
10.	केआर/19330	मे० एन. एण्ड जी. एतोतिस्ट	01.03.99 01.03.99
11.	केआर/19372	मे० एफ. टी. इन्फोमेशन एण्ड टेक्नोलोजी सर्विस प्रा० लि०	30.03.01 30.03.01
12.	केआर/केसी/19600	मे० अजीकल श्री बेराहा देवातवम	01.10.02 01.10.02
13.	केआर/19914	मे० ही-टेक इलेक्ट्रोनिक्स	01.04.04 01.04.04
14.	केआर/केसी/19928	मे० स्प्रीन को विदेश प्रा. लि.	01.01.04 01.01.04

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 के दार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उक्त प्राप्ति तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

एस. आर. जोशी  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्य.)

सं. के. भ. नि. आ. 1(4)/2147/2004/टीएन/65625

सूचकांक केन्द्रीय मविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी मविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 19 के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जाये।

क्र.सं.	कोड सं.	स्थापनाओं का नाम	प्राप्ति एवं सहमति की तिथि	
1.	टीएन/सीबी/ 21828	मे० इन्डस्ट्रीयल एड्स	24.04.89	24.04.89
2.	टीएन/सीबी/ 28947	मे० जगनाथ प्रोसेस	01.10.95	01.09.95
3.	टीएन/सीबी/ 33582	मे० श्री रामा कृष्णा इन्जीनियरिंग कालेज	24.10.96	24.10.96
4.	टीएन/सीबी/ 45624	मे० सेंट फ्रान्सिस कोन्वेंट नर्सरी स्कूल	25.10.99	25.10.99
5.	टीएन/50708	मे० आर्कटेक इन्डिया प्रा० लि०	01.05.04	01.05.04
6.	टीएन/56675	मे० नटराज लुड इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०	23.06.03	23.06.03
7.	टीएन/एम्ही/ 57070	मे० इस्वारी पंचिम वर्क्स	01.06.04	01.06.04
8.	टीएन/50503	मे० बाक्या फास्ट फूड्स	22.09.03	22.09.03
9.	टीएन/सीबी/ 28916	मे० अलान्जेन्द्रन आर्टोस प्रा० लि०	01.10.95	01.10.95
10.	टीएन/एम्ही/ 42808	मे० नवजीवन चाइल्ड डेवलपमेंट सेन्टर	27.01.03	27.01.03
11.	टीएन/एम्ही/ 42874	मे० गजेन्द्रन इन्जीनियरिंग फैब्रिकेटर	01.03.03	01.03.03
12.	टीएन/एम्ही/ 42938	मे० एसपी/एसपीएल/86 नालूर पीएसीबी	01.08.03	01.08.03
13.	टीएन/एम्ही/ 42941	मे० एसपी/एसपीएल/ 89 नर्यायाडसयू पीएसीबी	01.08.03	01.08.03
14.	टीएन/एम्ही/ 42965	मे० सारानया पावर टूल्स	18.12.03	18.12.03
15.	टीएन/टीआई/ 46973	मे० टी.टी. कदयानालूर टीचर्स को.-ओ. प्रिन्ट एंड क्रेडिट सोसाईटी	01.08.02	01.08.02
16.	टीएन/50227	मे० स्पैगो	25.02.03	25.02.03
17.	टीएन/50335	मे० बालाजी इलेक्ट्रिक वर्क्स	29.05.03	29.05.03
18.	टीएन/50513	मे० साई स्कुयोरिटीस एंड कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.	22.10.03	22.10.03
19.	टीएन/टीआई/ 55119	मे० रेली इन्जीनियरिंग वर्क्स	20.05.03	20.05.03



20	टीएन/टीआई/ 55133	मे० इन्स्टीट्यूट आफ़ सूरल टेक्नोलोजी एण्ड डेवलपमेंट	03.07.03	03.07.03
21	टीएन/एम्डी/ 57016	मे० बाटलागुन्डू को-ओ हाउसिंग सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी लि० ए-2031	01.03.04	01.03.04
22	टीएन/एम्डी/ 57050	मे० येसर एजेंसीज	01.05.04	01.05.04
23	टीएन/एम्डी/ 57051	मे० रोहिणी मेटलस	01.05.04	01.05.04
24	टीएन/एम्डी/ 57054	मे० एल. एल. चल्लडया नादार नानायम सुपर मार्केट	02.05.04	02.05.04
25	टीएन/एम्डी/ 57060	मे० क्यू 671, टी, मीनाक्षीपुरम पी. ए. टी. बी	01.05.04	01.05.04
26	टीएन/एम्डी/ 57091	मे० मीनाक्षी मेडिकल मार्ट	01.07.04	01.07.04
27	टीएन/टीआई/ 55217	मे० कन्याकुमारी बेनिफिट फंड	07.05.04	07.05.04
28	टीएन/एएमबी/ 65113	मे० वीरा सावरकर नेताजी मेट्रीकुलेशन स्कूल	01.07.01	20.06.01
29	टीएन/एएमबी/ 65269	मे० हिमकोस इन्जीनियरिंग वर्कस	01.10.02	18.09.02
30	टीएन/एएमबी/ 65526	मे० एन. डी. टी सप्लाइस	01.03.04	22.02.04

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं ।

एस. आर. जोशी  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)

सं. के. भ. त्त. आ. 1(4)/2149/2004/केएन

तःओतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोजता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ॥ 1952 का 19 ॥ के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र.सं०	कोड सं०	स्थापनाओं का नाम	स्थापित एवं सहमति की तिथि
1.	केएन/38039	मे० सुभामणिवा कमात	01. 12. 03 01. 12. 03
2.	केएन/20810	मे० आर. के. जोब कन्टेक्टर	01. 03. 03 01. 03. 03
3.	केएन/26353	मे० ग्लोबल इनवरोटच	23. 04. 04 23. 04. 04
4.	केएन/26436	मे० टेकवे इनफो सोलुसन प्रा०लि०	14. 06. 04 14. 06. 04
5.	केएन/26350	मे० लोरसन इन्टरप्राइसिस लि०	15. 04. 04 15. 04. 04
6.	केएन/26460	मे० एम. एस. आर इन्टरप्राइसिस	01. 07. 04 01. 07. 04
7.	केएन/एचबीएल/ 27019	मे० सावदी वी. एस. एस. बैंक लि०	01. 02. 01 01. 02. 01
8.	केएन/एचबीएल/ 17733	मे० ब्रादर वी. इत. एस. बैंक लि०	02. 10. 98 02. 10. 98
9.	केएन/25627	मे० सेंट माक्स पब्लिक स्कूल	28. 08. 02 28. 08. 02
10.	केएन/20990	मे० कन्सटेजिन कारपोरेशन	01. 09. 03 01. 09. 03
11.	केएन/34478	मे० इनोवा टीम सोल्यूशंस प्रा०लि०	01. 01. 04 01. 01. 04
12.	केएन/35370	मे० इसाकटी टेक्नोलॉजिस प्रा०	01. 04. 03 07. 03. 03
13.	केएन/एचबीएल/ 17105	मे० कर्नाटका लाईनरस	01. 10. 94 17. 09. 94

अतः अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 ॥ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं स्थापनाओं पर उस का उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

एस. आर. जोशी  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्य.)

सं. के. प. नि. आ. 1(4)/2150/04/डीएल

**सूचना** केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोजता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 19 के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र.सं. कोड.सं.	स्थापनाओं का नाम	स्थापित एवं सहमति की तिथि	
1. डीएल/27097	मे० कोन्स्टेन्स कन्ड इन्फोन्टीय मेकेमेन्ट [ड] प्रा०लि०	01.04.03	01.04.03
2. डीएल/24689	मे० यू. जी. इन्विनिवर्निन तर्वित	06.08.01	06.08.01
3. डीएल/26218	मे० लिजम कलमत प्रा०लि०	05.09.02	05.09.02
4. डीएल/ 25085	मे० हुमन रिचरोडकन रिचर्ड सेन्टर	02.08.04	02.08.04
5. डीएल/26823	मे० वेती कल्लेन प्रेमल संड कारगो प्रा. लि.	20.02.03	20.02.03

**आ:** आ: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं स्थापनाओं पर उक्त वा उती प्रमावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

एस. आर. जोशी  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)

सं. के. प. नि. आ. 1(4)/2151/2004/गोवा

**सूचना** केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोजता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 19 के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र.सं. कोड.सं.	स्थापनाओं का नाम	स्थापित एवं सहमति की तिथि	
1. गोवा/11383	मे० लक्ष्मी मेन्सावर तर्वित	28.04.03	28.04.03
2. गोवा/11421	मे० एचएनए इन्स्ट्रुमेन्ट संड कन्ट्रोल्स[पी]लि.	18.08.03	18.08.03
3. गोवा/11381	मे० तिममम इन्डिया प्रा०लि०	01.06.03	19.05.03
4. गोवा/11228	मे० इन्स्टिट्यूट आफ मेरिटार्डम स्टिडिडि	12.07.02	12.07.02
5. गोवा/11262	मे० आरबीए एक्स्पर्ट्स	03.09.02	03.09.02
6. गोवा/11459	मे० डी.के. इन्टरप्राइजित	17.12.03	17.12.03
7. गोवा/11380	मे० पुटये पम्पत [इन्डिया]	01.06.03	13.05.03

**आ:** आ: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं स्थापनाओं पर उक्त वा उती प्रमावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

एस. आर. जोशी  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)

सं. के. भ. नि. आ. 1(4)/2152/04/यूपी/जीजे/पीएन/

**सूचना** केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोजता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 § 1952 का 19 § के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जाये।

क्र.सं.	कोड सं.	स्थापनाओं का नाम	व्याप्ति	स्व. सहमति की तिथि
1.	पीएन/15604	मै० श्री गुस्तेग बहादुर कोलिज फोर वीमेन	01.11.90	01.11.90
2.	पीएन/24917	मै० दि बरनाला को०-ओ० मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सोसाईटी लि०	31.01.04	31.01.04
3.	पीएन/24843	मै० दि अहमदनगर को०-ओ० मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सोसाईटी लि०	20.11.03	20.11.03
4.	पीएन/24953	मै० दि थापा को०-ओ० मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सोसाईटी लि०	11.03.04	11.03.04
5.	यूपी/26429	मै० जी. शर्मा एंड क० प्रा० लि०	01.12.03	01.12.03
6.	यूपी/32627	मै० राकेश कुमार एच एंड टी कोन्टेक्टर.	07.03.02	07.03.02
7.	गुज/सुर/33494	मै० मानकपुर विविध कार्यकारी केंद्र सहकारी मंडली लि०	01.04.04	01.04.04
8.	गुज/सुर/32360	मै० ईएन-पीआरओ प्रोजेक्ट एंड इन्जिनियरिंग सर्विस	01.04.01	01.04.01

**आतः** आतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा § 4 § द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं स्थापनाओं पर उक्त या उसी प्रमाणी तिथि से अधिनियम को लागू करते है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

एस. आर. जोशी  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)

सं. के. भ. नि. आ. 1(4)/2153/2004/केएन

सा०आ० केन्द्रीय मविध्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोजता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी मविध्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 [1952 का 19] के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र.सं.	क्र.सं.	स्थापनाओं का नाम	स्थापना की तिथि	समाप्ति की तिथि
1.	केएन/26295	मे० सुरेश नर्सरी होस्टल ट्रस्ट	27.02.04	27.02.04
2.	केएन/26138	मे० बेंगलोर ऐजुकेशन ट्रस्ट	01.12.03	01.08.03
3.	केएन/26456	मे० एम्बीडेन्ट सोफ्टवेयर इन्डिया प्रा० लि०	06.07.04	06.07.04
4.	केएन/26012	मे० सिन्धु इन्जिनियरिंग क०	22.08.03	22.08.03
5.	केएन/26049	मे० क्वालिटी आर्टो प्रोजेक्ट प्रा० लि०	14.08.03	14.08.03
6.	केएन/25009	मे० इक्सीलोन कन्ट्रोल संड आटोमेशन	01.02.01	15.01.01
7.	केएन/26419	मे० निकरसन ज्वान सीड प्रा० लि०	15.06.04	15.06.04
8.	केएन/35224	मे० टीएम लेसिंस सर्विस प्रा० लि०	30.04.02	30.04.02
9.	केएन/20577	मे० ब्रह्मदेवा वेल्डरस संड फेब्रिकेशनस	01.11.01	01.11.01
10.	केएन/20964	मे० धर्मस्थला हाल उत्प्रेषक सहायक सहायक सहायक	01.08.03	30.07.03
11.	केएन/20963	मे० अनाकेडु सुबामण्यम प्रा० एग्री. क्रेडिट को-ओ० बैंक लि०	01.09.03	31.08.03
12.	केएन/20944	मे० ओमसन इलेक्ट्रीकल	01.08.03	30.07.03
13.	केएन/38073	मे० मंगलोर टिचर को-ओ० के. सी. लि०	01.01.04	01.01.04
14.	केएन/36120	मे० के. एस. आर. टी. स्टाफ एण्ड वर्कर्स क्रेडिट को-ओ० सोसाइटी	01.10.03	01.10.03
15.	केएन/26122	मे० दि बैंक आफ इन्डिया स्टाफ को-ओ० क्रेडिट एण्ड थ्री. सोसाइटी लि०	01.12.03	27.11.03
16.	केएन/एचबीएल/27283	मे० वी. एस. एस. बैंक	01.02.03	25.01.03
17.	केएन/19999	मे० सिलेक्स सिटी इन्डिया प्रा०	31.05.97	23.05.97
18.	केएन/38119	मे० लोबो इन्जिनियरिंग	01.06.04	01.06.04
19.	केएन/एचबीएल/17789	मे० जगपुरा व्यवसाय सेवा सहकारी बैंक नियमित	01.03.99	01.03.99
20.	केएन/एचबीएल/17915	मे० व्यवसाय सीमा सहकारी बैंक नियमित	01.01.00	01.01.00
21.	केएन/पीएनवाई/29442	मे० बैंकटाइरी इन्टर प्राईसिड	15.04.03	15.04.03
22.	केएन/23483	मे० मयूरा अनायटिकल प्रा० लि०	25.11.97	25.11.97
23.	केएन/एचबीएल/27284	मे० वी. एस. एस. बैंक लि०	01.02.03	01.02.03

अतः आः केन्द्रीय मन्त्रालय निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं स्थापनाओं पर उक्त या उती प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है ।

एस. आर. जोशी  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)

सं. के. भ. नि. आ. 1(4)/2154/2004/महा.

तदुक्त केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोजता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 19 के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र.सं०	कोड सं०	स्थापनाओं का नाम	स्थापित एवं सहमति की तिथि	
1.	महा/115498	मे० समता बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थालि०	01.08.03	01.08.03
2.	महा./46407	मे० कोटक मेहन्दा इनवेसमेन्ट लि०	01.01.03	01.01.03
3.	महा./45845	मे० फोबस सेवा कन्सट्रुटिवम इन्डिया लि०	01.09.01	01.09.01
4.	महा./केपी/	मे० श्री लक्ष्मी नागरी सहकारी पत	31.10.98	31.10.98
1	100378	संस्था मर्यादित		
5.	महा/46727	मे० आशा कीलेयरिब एजेंसी पा०लि०	01.07.03	01.07.03
6.	महा/47059	मे० ओजन टेक ओटो मेशन	01.04.04	04.04.04
7.	महा/47031	मे० मेकडावल एल्कोकोबिह लि०	26.03.04	26.03.04
8.	महा/46469	मे० अमर किलेरिगं सर्विस	01.02.03	01.02.03
9.	महा/47183	मे० पथ ए केक	01.06.04	01.06.04

अतः अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं स्थापनाओं पर उक्त या उती प्रमाणी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

एस. आर. जोशी  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुम्बई.)

## दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

कानपुर-208001, दिनांक 29 नवम्बर 2004

## (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

नं० 3सी.सी.ए.(4)(3)/2003-2004:- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान विनियम सन् 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1(ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्ता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों के नाम निर्धारित शुल्क न जमा कराने के कारण दिनांक 22/12/2003 से हटा दिया गया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
1.	003605	मि० अग्रवाल सतिन्दर कुमार विकर्ज 382 सेक्टर 15 ए नोएडा 201301	7.	028745	मि० रामचन्द्रन आर जी फ्लैट नम्बर. 203, गरिमा अपार्टमेंट्स 57/58, श्री नगर मेन इन्दौर 452001
2.	008323	मि० मैयत्रा सुब्रत कुमार हृदेश्वर हाउस दामोदरपुर रोड, हीरापुर, धनबाद 826001	8	036307	मि० साहू सनील प्रकाश डाइरेक्टर ग्वालियर पोलिपाइप्स लिमिटेड. इन्डस्ट्रीयल एरिया मालनपुर, मिन्ड 477117
3.	009801	मि० गांधी कनैयालाल पुनमचन्द कुवैत इन्वेस्टमेंट कम्पनी (एस. ए. के.) पी. बी. नम्बर. 1005, सफ्ट सफ्ट- कुवैत -130911	9.	033262	मि० बोलिया विजय सिंह 5. क्यू 6 आर सी ब्यास कालोनी भीलवाड़ा 311001
4.	009909	मि० मित्तल गोपाल चन्द 62-ए पुराना किला लखनऊ 226001	10.	037857	मि० गुप्ता महेन्द्र कुमार ओ क्यू एफ - 3 जे के नगर कोटा 324001
5.	012101	मि० गुप्ता अमर नाथ सी- 127, सेक्टर - 19 नोयडा 201301	11.	038722	मि० दिनेश कुमार पाण्डेय 709/31, बारह कोठी, नागरा, अजमेर 305008
6.	015480	मि० मुन्दरा राम प्रकाश आउटसाइड सिवानची गेट जोधपुर 342001	12.	042385	मि० मोधुर कुलदीप 192 कमला नेहरू नगर चोपासनी रोड जोधपुर सिटी जोधपुर 324001

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
13.	043117	मि० सोमानी संजय कुमार 14, गेल चर्च कामप्लेक्स सेकण्ड फ्लोर मेन रोड राची 834001	20.	053652	मि० जैन विवेक चन्द्र 102 — एन डब्लू गोल्फ लीक अपार्टमेंट्स 98 पार्क रोड लखनऊ 226001
14.	045969	मि० गोयल नन्द किशोर मेर्सस अल-हसर एण्ड कम्पनी पी. ओ. बाक्स 28 मुत्तरह पोस्टल कोड 114 मुत्तरह 114 सल्लनत आफ ओमन	21.	055163	मि० मिश्रा अमीय कुमार 103, विष्णु प्लेस बोरिंग कैनाल रोड पटना 800001
15.	047794	मि० जोशी आशीश शंकर लाल मार्फत एस एल जोशी के-2 अरबिन्दो इन्क्लेव पाचपीडी नाका के पीछे धमतरी रोड रायपुर 492001	22.	055254	मि० मिश्रा आदित्य कुमार 8 आफिस रोड नार्थन टाउन जमशेदपुर 831001
16.	050038	मि० जैन शालिन चन्द्र 102, एन. डब्लू गोल्फ लिंक अपार्टमेंट 98, पार्क रोड लखनऊ 226001	23.	055502	मि० सेठ जवाहर डिप्टी मैनेजर फाइनेन्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड चिनहट इंडस्ट्रीयल एरिया लखनऊ 226019
17.	051891	मि० सिंह प्रमोद कुमार पी आर डी ए सेंट्रल स्टोर प्रेमचन्द गोलम्बर, राजेन्द्र नगर पटना 800004	24.	055820	मि० ब्रिज मोहन सोनार बी एम ज्वैलर्स सदानी चौक सदर बाजार रायपुर 492001
18.	052294	मि० थरड चन्द्र कुमार मार्फत श्री डी कुब्जत 15-16 शिव कालोनी उदयपुर रोड (हीरो हान्डा शो रूम के पीछे) बंसवाड़ा	25.	056005	मि० मंधना ओम प्रकाश 131/5 एम पी नगर जोन 2, भोपाल 462011
19.	053506	मि० झा अरविन्द कुमार डिप्टी फाइनेन्स मैनेजर क्वार्टर सी-2027 सेक्टर -एक्स कोयला नगर धनबाद 828005	26.	056020	मि० बंधयोपाध्याय सोउमीक एफ-223 राम विहार सेक्टर 30, नोयडा -201303
			27.	057353	मि० मुखोपाध्याय अनिरबन ए-46 सेक्टर 26 अपोजिट कैलाश हास्पिटल नोयडा 201301



क्र०-सदस्यता सं० संख्या	नाम व पता	क्र०-सदस्यता सं० संख्या	नाम व पता
28. 058062	मि० मगनीया प्रशान्त मगनीया हाउस मेन रोड, जिला - धनवाद झरिया 828111	34. 060340	मि० जैन संजय कुमार 6-चा-5 जवाहर नगर जयपुर 302004
29. 058585	मि० लखोटिया रोहित पुत्र बी० एल० लखोटिया डी डी रोड जिला - अररिया फारबिसगंज 854318	35. 060626	मि० गोलछा मनीष कुमार मार्फत गोलछा उद्योग जुमन चौक जिला अररिया फारबिसगंज 854318
30. 058633	मि० अग्रवाल सचिन मेर्सस सचित्र अग्रवाल एफ़्ड गुप्ता मंजूश्री हाउस निकट उमा टाकीज पिरमोहनी पटना 800003	36. 060722	मिस रुगंटा अनुराधा साजन मार्फत वैद्यनाथ शर्मा राईस मिल जिला - झारखण्ड चाकुलीया 832301
31. 059345	मि० घोष सुमोजीत असीसटेन्ट मैनेजर (एफ़ एण्ड ए) आई बी पी कम्पनी लिमिटेड (मर्वेन्ट आफ़ इंडिया) इन्टरप्राइज बिजनेस ग्रुप (पेट्रोलियम) इ-8 सेक्टर -1 नोयडा 201301	37. 060794	मि० सिंह अजीत कुमार मार्फत सुरेश प्रसाद विद्यापति नगर काँके रोड रांची 834008
32. 059552	मि० पाण्डा चन्द्रमनी मार्फत सत्य नारायण गुप्ता कोठी दसेरा बीघ का मोहल्ला अलवर 301001	38. 061903	मि० बोथरा सुशील कुमार अग्रवाल बुक डिपो हाई कोर्ट रोड विलासपुर 244921
33. 060292	मि० लोहिया अभिषेक मार्फत राधा किशन टेक्सटाइल्स एम जी रोड बिहार कटिहार 854105	39. 070063	मि० नाहटा उत्तम चन्द रीजनल डाइरेक्टर डिपार्टमेंट आफ़ कम्पनी अफ़ैर्यस 10/499 बी, एलनगंज खलासी लाइन्स पोस्ट बाक्स नम्बर 137 कानपुर
		40. 070197	मि० सोधा रनवीर सिंह निकट लक्ष्मी धर्मकांटा हवा सड़क 22 गोदाम जयपुर 302006

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
41.	070634	मि० लुनीया राजेन्द्र कुमार आर एस एसोसिएट लुनिया कोठी भगवान महावीर मार्ग जी. एस. रोड बीकानेर 334001	48.	071113	मि० तलवार सुरेन्द्र कुमार 38/6, राइटगंज गाजियाबाद 201001
42.	070836	मि० सुनील कुमार चीफ एकाउन्टेन्ट किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड विसलपुर पीलीभीत 262001	49.	071218	मि० अग्रवाल सुनील कुमार 556 दयानन्द मार्ग फिरोजाबाद 283203
			50.	071333	मि० खिनवसरा सुनील 1705 मिंडी लेन पिसकेटवे एन जे - 08854 यू. एस. ए.
43.	070942	मि० पानगडियाँ ज्ञानमल जी० एम० पानगडियाँ एण्ड कं० 154 वकील कालोनी भीलवाडा 311001	51.	071334	मि० सिद्दीकी एहसान कमल 5235 हंटिंग फिल्ड ड्राइव मीसीसव गा एल 5 आर 2 एल 3 ओनटारियो कनाडा
44.	071016	मि० राव रमेश सी-25, न्यू आगरा अपोजिट चन्द्रवती स्कूल आगरा 282001	52.	071343	मि० गर्ग शीलेन्द्र नाथ मेसर्स एस एन गर्ग एण्ड कम्पनी 16-17 मुंशीपल मार्केट पहली मंजिल दिल्ली गढ़ रोड हापुड़ 245101
45.	071020	मिस० खन्ना स्वर्ण मलहीपुर रोड निकट जैन डिग्री कालेज प्रदुम्न नगर सहारनपुर 247001	53.	071753	मि० मंत्री अनिल कुमार 324 शॉपिंग सेन्टर कोटा 324007
46.	071078	मि० राय कपिल रूप मेसर्स कपिल राय एण्ड कम्पनी 107 नवजीवन काम्पलेक्स 29 स्टेशन रोड जयपुर 302006	54.	071762	मि० रतन कुमार फाइनैस डाइरेक्टर हैरिटेज उलेन मिल्स लिमिटेड पी ओ बाक्स 735 एलडोरेट केन्या
47.	071103	मि० डगर सत्यवीर सिंह सवाई जय सिंह हाईवे एम-5 न्यू मार्केट बनी पार्क जयपुर 302006	55.	071790	मि० गणेशन आर 303 मोर्य श्री 41 श्रीनगर इक्सटेन्सन इंदौर 452001

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
56.	071913	मि० जैन महेंद्र कुमार 201 अमित चैम्बरस 5-6 जौरा कम्पाउन्ड एम वाई एच रोड इंदौर 452001	63	072287	डा० जोशी बुद्धि प्रकाश जोशी भवन 397/XXVII जोनशगंज अजमेर 305001
57.	071917	मि० गोडिका संजय डी-1 गणेश मार्ग बापू नगर जयपुर 302015	64.	072393	मि० गोयल सुरेन्द्र कुमार सी-44 मालवीय मार्ग सी- स्कीम जयपुर 302001
58.	071931	मि० महेश्वरी मणिकान्त फ्लैट नम्बर 24 केदारनाथ अपार्टमेंट्स 5 पी ब्लॉक काकादेव कानपुर 208025	65.	072490	मि० भंडारी सुशील कुमार 12/18 मालवीय नगर जयपुर 302017
59.	071939	मि० पुरी हरप्रीत सिंह जनरल मैनेजर (कामर्शियल) टी एम टी कारपेट्स मैन्यूफैक्चरिंग (टैनजीन) कम्पनी यूनीट 10ए-बी ब्लॉक ए इन्डोटेक टावर 235 नानजीग रोड हेपिंग जिला टैनजीन चाइना	66.	072491	मि० चतुर्वेदी दिलीप कुमार डिप्टी फाइनेंस मैनेजर ए ई सी एल कोरबा पी ओ कोरबा कोलियरी कोरबा 495679
60.	072029	मि० गुप्ता अनिल कुमार 75/6 हात्सी रोड कानपुर 208001	67.	072512	मि० दत्ता अरूण कुमार मकराबर्ट हास्पिटल बंगला 14/112 सिविल लाइन्स कानपुर 208001
61.	072066	मि० खंडेलवाल दीपक मुखमरिया भवन जी आर का रास्ता जयपुर 302004	68.	072645	मि० बाजपेई कृष्ण कुमार 621/22 डब्लु ब्लॉक जूही कला बर्सा कानपुर 208027
62.	072253	मि० चदवा संजीव 9 हरि मार्ग सिविल लाइन्स जयपुर 302008	69.	072765	मि० सीसोदिया ए एस 17-ई/400 ए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड चोपासनी जोधपुर 342001

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
70.	072838	मि० सोमानी विजय कुमार मार्फत इंदोरमा इपलिक सन बी टीक ए एस वकीपलार कोयू उलास मिवकीज पी के 196 कोरलू टीकिरडोंग 59800 तुर्की	78.	073410	मि० सुल्तानिया श्याम सुन्दर सी-71 अम्बाबारी जयपुर 302001
71.	072923	मि० महेश्वरी सत्यनारायण जी-1 सत्यम 122 विद्या नगर इंदौर 452001	79.	073454	मि० राजीव मोहन एच आई जी-28 संचार विहार सी-58/4 सेक्टर -62 नोयडा 201301
72.	072965	मि० जैन काजूद मल 214 गायत्री नगर ए दुर्गापुर जयपुर 302016	80.	073468	मि० गुप्ता शिरीश कुमार मार्फत बसंत लाल गुप्ता रेल बाजार के पास इन्टर कालेज देवी गंज फतेहपुर 212601
73.	072991	मि० मनमोहन बंसल 52 सरदार क्लब स्कीम एअर फोर्स एरिया जोधपुर 342001	81.	073679	मि० खंडेलवाल राकेश कुमार पुत्र मि० एस० एल० खंडेलवाल एडवोकेट राज कटीर निकट कटवली भरतपुर 321001
74.	073015	मि० गर्ग शशि कुमार 1 आशीश विहार आशीश नगर कनौडिया रोड इंदौर 452001	82.	073726	मि० संघवी दिलीप कुमार 209 मागस भवन इक्सटेन्सन आर एन टी मार्ग इंदौर 452001
75.	073023	मिस० शर्मा रीता 103 मोहन नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर 302018	83.	073839	मि० खटोर प्रहलाद राय मार्फत ओम प्रकाश गिरिराज दि बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड के सामने स्टेशन रोड भोपालगंज भीलवाड़ा 311001
76.	073067	मि० जैन सौरभ एफ-137 सेक्टर 41 नोयडा 201303	84.	073849	मि० राजेन्द्र कुमार ई-3 जूनेयर एम. आई. जी. 27 अरेरा कारतोनी भोपाल 462016
77.	073209	मि० नैनावती महेन्द्र सिंह पद्म निवास सिधू नगर भीलवाड़ा 311001	85.	073860	मि० डफरिया नितिन कुमार एन के डफरिया एण्ड कम्पनी 218-बी बंसी ट्रेड सेक्टर 518/5 एम जी रोड इंदौर 452003

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
86.	073873	मि० जैन सुरेश कुमार 32 शान्तिनगर गैस गोदाम रोड हिरन मागरी सेक्टर - 3 उदयपुर 313001	93.	074081	मि० शर्मा विनोद कुमार 111-ए/403 अशोक नगर 80 फीट रोड कानपुर 208012
87.	073874	मि० कंकड़ मनोज कुमार हाउस नम्बर 47 मालवीय बंगला जोधपुर 342014	94.	074118	मि० युगल किशोर हाउस नम्बर 30 मगत की कोठी निकट पीली टंकी जोधपुर 342004
88.	073882	मि० सिंघल प्रवीण कुमार पंजाब नेशनल बैंक के विपरीत फस्ट फ्लोर मोदीनगर 201204	95.	074271	मि० लाल मनमोहन गोविन्द हरी 7/98 विद्यानगर जयपुर 302023
89.	073940	मि० चतुर्वेदी संजय एफ-11-एम ब्लक आर के पुरी थटीपुर कमलानी ग्वालियर 474002	96.	074286	मि० फारीख रबीन्द्र 303 एण्ड 304 श्री गोपाल टावर अशोक मार्ग अहिंसा सर्कल सी स्क्रीम जयपुर 302001
90.	073948	मि० काली संजय 3 रमेश निकेतन 4ए कल्मीक मार्ग लाल बाग लखनऊ	97.	074418	मि० केडिया विजय कुमार 26/81-ए बिरहाना रोड कानपुर 208001
91.	073980	मि० जोशी अनिल 247 अशोक नगर निकट खुआदिया मेमोरियल उदयपुर 313001	98.	074427	मि० संजदेवा हरीश चन्द्र 306 तृतीय तल अस्थावा टावर 117/एच-एच-383 कानपुर 208005
92.	074078	मि० सक्सेना दीपेश 9024 ई टाउन एण्ड कन्द्री वी एल वीडी एम डी 21043 ऐलिकोट सिटी यू एस ए	99.	074459	मि० मिश्रा जयंत 305 शानिकर दर्पण बिल्डिंग 27 प्रेस कॉम्प्लेक्स ए बी रोड इंदौर 452008

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
100.	074563	मि० चोरडीया अजीत मार्फत प्रीती केमिकल (प्रा०) लिमिटेड पोस्ट बाक्स नम्बर 13 धनेरी सोजत सिटी 306104	108.	075060	मि० अग्रवाल अनिल कुमार एच-1/35 राम विहार जी पी ओ के विपरीत एम आई रोड जयपुर 302001
101.	074644	मि० शर्मा रवीन्द्र कुमार पायनियर हास्पिटल बिल्डिंग ओरिएन्टल बैंक आफ कार्मस के विपरीत स्टेशन रोड सीकर 332001	109.	075189	मि० महेश्वरी गोपाल मार्फत डी सी एम रिटेल स्टोर रेलवे रोड जिला बुलन्दशहर डीबाई 202393
102.	074685	मि० अग्रवाल संजय 107 विकास बाजार मथुरा 281001	110.	075286	मि० सिंघल समीर डी-49 शास्त्री नगर मेरठ 250004
103.	074740	मि० गुप्ता शैलेश चन्द्र मार्फत शोभा वार्ष्णेय 2/4ए पटेल मार्ग विष्णुपुरी अलीगढ़ 202001	111.	075289	मि० फरसैया अखिल 33/6, संजय प्लेस आगरा 282002
104.	074770	मि० अग्रवाल मोहित 632 दीपू पैलेस दि माल कानपुर 208001	112.	075317	मि० जैन मनोज 728/2 पी एल शर्मा रोड बेगम बाग मेरठ 250001
105.	074796	मि० तिवारी रामा शंकर 111-ए/129, अशोक नगर संजीवनी ब्लड बैंक के विपरीत कानपुर 208012	113.	075366	मि० संजय वर्गीज 124/46/6बी गणेश नगर मोइराबाद इलाहाबाद 211001
106.	074959	मि० चौधरी विनोद 2 खुरसीद बाग विष्णु नगर लखनऊ 226004	114.	075403	मि० गुप्ता अनुरोध 10 गुरु मंडल आश्रम देवपुरा हरिद्वार 249401
107.	074961	मि० विजय शंकर 120/99, 1 सादत मंजिल बेलदरी लेन, लालबाग लखनऊ 226001	115.	075453	मि० गग्गर सुरेश चन्द्र निकट गर्गस टेम्पल पोस्ट रेल गाँव भीलवाड़ा 311024
			116.	075454	मि० मिश्रा ब्रिजेन्द्र कुमार 117/391 'ओ' ब्लाक गीता नगर कानपुर 208001

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
117.	075734	मि० सम्बरवाल गिरीश 3, जिलाधीश मार्ग राजपुर रोड देहरादून 248001	125.	076321	मि० वर्मा भानू प्रकाश फाइनैस मैनेजर एन सी एल दुधीचुआ प्रोजेक्ट 90 खादिया सोनमद्र 231222
118.	075955	मि० गग्गर दीन बंधु 1- साबुन मार्ग भीलवाड़ा 311001	126.	076420	मि० अग्रवाल संजीव कुमार 15 प्रताप नगर टोंक फाटक जयपुर 302015
119.	075981	मि० जैन सुरेन्द्र कुमार 18, तरानी कालोनी देवास 455001	127.	076440	मि० जैमिनी सत्य नारायण मार्फत मनवार मूर्ति आर्ट 1933, खजाने वाले का रास्ता मिश्रा भवन की गली चान्दपोल बाजार जयपुर 302001
120.	075988	मि० जैन मुकेश 53 छत्रपति नगर एरोझम रोड निकट अग्रसेन नगर इंदौर 452001	128.	076477	मि० मनीश चन्द शाहीदगंज सहारनपुर 247001
121.	076089	मि० सिंह अमित 8 विद्या भवन स्कूल उदयपुर 313001	129.	076566	मि० मंडारी दीपक प्लॉट नम्बर 585 रोड 9वां बी सरदारपुरा जोधपुर 342006
122.	076197	मि० पारीख मनोज कुमार प्लॉट नम्बर 30 कल्याण कालोनी टोंक फाटक जयपुर 302015	130.	076568	मि० मेहता मनीष 13/8 साउथ टुकोगंज इंदौर 452001
123.	076203	मि० चौधरी सुनील 111, प्रगति चैम्बर 34/3, मुरई मोहल्ला इंदौर 452001	131.	076595	मि० गुप्ता अशोक कुमार सी-2 अरिहन्त काम्प्लेक्स नहरगढ़ रोड जयपुर 302001
124.	076205	मि० भगत गिरजेश कुमार 55/57 काहूकोठी सारिका होटल बिल्डिंग कानपुर 208001	132.	076652	मि० दिनेश कुमार चौधरी 201, उषा निकेतन डी नम्बर 76, धिया मार्ग बनी पार्क जयपुर 302001

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
133.	076671	मि० श्रीवास्तव शरद शेखर फ्लैट नम्बर 64, 6वां फ्लोर पंचवटी अपार्टमेन्ट 8/60, आर्य नगर कानपुर 208011	140.	076871	मि० सलूजा राजप्रीत सिंह 118/5 कौशलपुरी गुमटी नम्बर 5 कानपुर 208012
134.	076691	मि० चतुर्वेदी निखिल कुमार लोक निवास लोक मानगंज चारबाग लखनऊ 226019	141.	076881	मि० श्रीवास्तव अर्चना फ्लैट नम्बर 64, 6वां फ्लोर पंचवटी अपार्टमेन्ट 8/60, आर्य नगर कानपुर 208001
135.	076692	मि० गुप्ता विजय कुमार हाउस नम्बर 62 बी 2/बी 99 गेल विहार सेक्टर 23 जिला जी बी नगर नोयडा 201301	142.	076914	मि० गुप्ता संजय 71/4 मध्यम मार्ग मानसरोवर जयपुर 302001
136.	076779	मि० कश्यप मुकेश कौशिक चैम्बर स्टेट बैंक रोड केवराभुंडा वार्ड जगदलपुर तह० जगदलपुर (छत्तीसगढ़) बस्तर 494001	143.	077033	मि० परमार संजय 70 इन्द्रलोक कालोनी केसरबाग रोड इंदौर 452009
137.	076786	मि० पवेचा अजय 23 अजंता टाकीज रोड रतलाम 457001	144.	077062	मि० जैन अमित कुमार सी-41 कालोनी नम्बर 1 जे. के. व्हाइट सीमेन्ट वर्क्स नागौर गोटन 342902
138.	076840	मि० कामले मनोज सुरेश दाल बाजार ग्वालियर 474001	145.	077185	मि० मलहोत्रा रजित 264-बी गंगा अपार्टमेन्ट सेक्टर- 29 नोयडा 201301
139.	076866	मि० जैन संजय कुमार बी-34 शक्ति नगर टॉक रोड जयपुर 302018	146.	077186	मि० जैन निलेश 554 खाटीवाला टैंक इंदौर 452001
			147.	077322	मि० पारख राजेश डोवलाईट एण्ड टॉकी पी ओ बाक्स 990 अबु धाबी यू ए ई



क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
148.	077330	मि० केदावत शैलेश राज 497-98 केदावत हाउस किसान पोल बाजार नमक की मंडी जयपुर 302001	156.	077757	मि० जैन अमित मार्फत एन के जैन 56 चम चन्द आदर्श विद्यालय के ऊपर निकट जैन टेम्पल जीरो रोड इलाहाबाद 211003
149.	077382	मि० कॉल दिनेश कुमार 115 द्वितीय तल बापू बाजार उदयपुर 313001	157.	077785	मि० दास प्रजा पति शरन ए-7 माधो राम बिल्डिंग 4 रायपुर रोड देहरादून 248001
150.	077423	मि० जैन राकेश कुमार 165 स्कीम नम्बर 4 राजेन्द्र नगर अलवर 301001	158.	077803	मि० भट्ट कमलेश कुमार 1/9 किसानगंज ब्यावर 305901
151.	077427	मि० अमित कुमार नार्थ सिविल लाइन्स जनसंघ मुजफ्फर नगर 251314	159.	077814	मि० मिश्रा शशि चन्द्र रामकुंज समीरा कोठी जमाल रोड पटना 800001
152.	077440	मि० सैनी सुरेश कुमार 66/309 हुला गंज कानपुर 208001	160.	077838	मिस० हजरा श्रीरूपा डी-193 सेक्टर -49 नोयडा 201301
153.	077614	मि० सिंह श्रीनिवास 54/9 नग्नगंज कानपुर 208001	161.	077855	मि० मेहता अमित 497-98 नमक की मंडी किसान पोल बाजार जयपुर 302001
154.	077655	मि० अजमेरा दिनेश निकट देव नारायण टेम्पल मीडिल स्कूल के पीछे आजाद नगर पुर रोड मीलवाड़ा 311001	162.	077931	मि० वार्शनी विपुल सत्या शपथ फर्स्ट फ्लोर 9/1 इडमोनस्टोन रोड सिविल लाइन्स इलाहाबाद 211001
155.	077719	मि० जजोदिया नीलेश कुमार 4, मंगल कालोनी देवांश गायत्री नगर अजमेर रोड डिस्ट्रीक अजमेर ब्यावर 305901	163.	077940	मि० गुप्ता रोहित 5/3 बेनी बाजार इ सी रोड देहरादून 248001

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
164.	078068	मिस० सिंधी नीलू 413/39, भंडारा गली के बाहर नल्ला बाजार अजमेर 305001	172.	078892	मि० भाटिया अनिल 4, राधा गोविन्द स्ट्रीट थरपकना रॉंची 834001
165.	078141	मि० जैसवाल संतोष मार्फत राम नारायण एण्ड कम्पनी 32/41 गर्ग क्लार्क मार्केट घुमनी बाजार कानपुर 208001	173.	078940	मि० गुप्ता प्रमोद कुमार मार्फत राम विशाल गुप्ता 88, विन्धवासिनी नगर अरडली बाजार वाराणसी 221002
166.	078355	मि० अग्रवाल मनीष 155 घी मंडी मदर गेट अजमेर 305001	174.	078982	मि० झा प्रणव कुमार फ्लैट नम्बर एम -1 टिस्को आफिसर्स कालोनी डीगवाडीह नम्बर 12 पी ओ जैलगोरा झारखण्ड धनबाद 828110
167.	078422	मि० अग्रवाल नितिन मोहन आर-5/95 राज नगर गाजियाबाद 201000	175.	079018	मि० गुप्ता विकास गुप्ता भवन राम नगर कालोनी शास्त्री नगर जयपुर 302016
168.	078511	मि० श्वेतांक भूषण सेकेंड फ्लोर कृष्णा बिल्डिंग एस पी वर्मा रोड पटना 800001	176.	079024	मि० पोद्दार संदीप 8, एच आई जी संगम विहार सोनारी जमशेदपुर 831011
169.	078612	मि० अग्रवाल विनीत सी-14 ए सी सी कालोनी मार्फत एम सी अग्रवाल (माइन्स) पी ओ जमुल सिमेंट वर्क्स जिला दुर्ग भिलाई 490024	177.	079033	मि० मेइवाल प्रेम शंकर राधा बिहारी भवन लक्ष्मी सेकेंडरी स्कूल के विपरीत साकेतपुरा कोटा 324008
170.	078715	मि० पंजाबी किशन लाल इन्द्रा कालोनी नीम का थाना सीकर 332713	178.	079096	मि० ककरा गोविन्द कुमार 194 स्मृति नगर छोटा बंगरदा रोड एयरपोर्ट रोड इंदौर 452005
171.	078760	मिस० मलिक नोनह 14/11, अलकापुरी सर्किट हाउस के विपरीत इलाहाबाद 211001			

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
179.	079110	मि० अहूजा मनोज कुमार 16/985 दिग्जाम रिटेल शो रूम के विपरीत जीवन बीमा मार्ग पन्डरी रायपुर	187.	079336	मि० गोयल अक्षय 46 सत्कार शॉपिंग सेन्टर मालवीय नगर जयपुर 302017
180.	079128	मि० जैन ललित 106 हिरन मगरी सेक्टर -11 उदयपुर 313002	188.	079338	मि० बहेटी शम्भु मार्फत बी एल बहेटी लाल प्याऊ पारीक कालेज रोड बनी पार्क जयपुर 302006
181.	079133	मि० गोयल राजेश 394 शॉपिंग सेन्टर कोटा 324007	189.	079349	मि० राय कौशल किशोर मार्फत श्री जय गोपाल राय न्यू ओकनी, निटक टैंक हजारीबाग 825301
182.	079165	मि० विनय कुमार 3/137 एम आई जी विकास नगर लखनऊ 226022	190.	079409	मि० बोथरा प्रमोद पहली मंजिल धनराज काम्प्लेक्स मेन रोड बालघाट 481001
183.	079235	मि० गुप्ता राजेश 3ए/118/16 नेहरू नगर गाजियाबाद 201001	191.	079454	मि० गोयल देवेश नन्दकिशोर 91 तिलक नगर निकट एक्सटेंशन श्वेताम्बर टेम्पल इंदौर 452001
184.	079240	मि० प्रजापत मनोज कुमार 24 नार्थ यशवंतमंज मलहरमंज लक्ष्मी बिल्डिंग के विपरीत इंदौर 452002	192.	079457	मि० पाण्डे शिवाशीश टेक्समेको इन्जीनियरिंग ग्रुप गेडुंग सेन्टर मुलिया स्वीट 1001 जे1, एच आर रसुना साइड काव. एक्स-6 नम्बर 8 जार्काता 12940 इन्डोनेशिया
185.	079273	मि० सक्सेना श्याम मोहन 2-एफ 90 नेहरू नगर गाजियाबाद 201001	193.	079459	मि० जिंदल अमित एस ए-18/4 शास्त्री नगर गाजियाबाद 201001
186.	079326	मि० भटनागर अदनीश 498 /1 लेन नम्बर 9- न्यू नेहरू नगर मेरठ 250002	194.	079471	मि० नरसरिया श्याम कुमार एच. बी. रोड रौंची लालपुर थाना के विपरीत रौंची 834001

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
195.	079579	मि० रमेश चन्द्र मार्फत मेसर्स गजेन्द्र कुमार एण्ड ब्रदर्स रामा मार्केट भरतपुर 321001	202.	079909	मि० रमानी गोविन्द 44/7 श्रद्धानन्द मार्ग छावनी मेन रोड यूको बैंक स्वायर इंदौर 452001
196.	079668	मि० मंगल मुकेश मार्फत श्री पी एम मंगल 49ए मंगल कुंज श्री राम मार्ग पाल रोड जोधपुर 342003	203.	079911	मि० दागा अमित 26 नेहरू पार्क दागा भवन जोधपुर 342001
197.	079706	मि० बेतला अरविन्द 11 उषागंज छावनी इंदौर 452001	204.	079927	मि० गांधी सचिन कुमार 175 विष्णुपुरी एनेक्स ए बी रोड इंदौर 452017
198.	079719	मि० अग्रवाल विजय कुमार मार्फत मेसर्स शान्ति सीमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड 9/1 आसीयना ट्रेड सेन्टर आदित्यपुर जमशेदपुर 831013	205.	079936	मि० अग्रवाल संजय 17/जी/312 वसुन्धरा गाजियाबाद 201010
199.	079790	मि० महेश्वरी अक्षय 202-203 मौर्य श्री 41 श्रीनगर इक्सट. इंदौर 452001	206.	079937	मि० राष्ट्रायक अनुराग सी-39 स्वर्ण विहार सोनारी जमशेदपुर 831011
200.	079841	मि० अस्थाना आशीष 104, सिटी होटल काम्पलेक्स बी. एन. रोड लाल बाग लखनऊ 226001	207.	079975	मि० जैन दौलत राज ए/292 शास्त्री नगर जोधपुर 342003
201.	079883	मि० अग्रवाल धर्म वीर 117/484 क्यू ब्लॉक शारदा नगर कानपुर 208001	208.	080237	मि० वासुदेवन टी फ्लैट नम्बर 24-सी, नीलगिरी -1, सेक्टर -34 नोयडा 201307
			209.	080957	मि० महेश्वरी राम स्वरूप 135 रतन दीप काम्पलेक्स पहली मंजिल सिविल लाइन्स बरेली 243001

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
210.	081721	मि० राकेश कुमार सी-87 सेक्टर - 41 नोयडा 201303	218.	082779	मि० भार्गव शिव कुमार 4 बैंक कालोनी अलवर 301001
211.	081886	मि० अग्रवाल हरीश डी-7 रामप्रस्थ गाजियाबाद 201001	219.	083630	मि० पोद्दार गिरीश चन्द्र फ्लैट नम्बर 16 "श्री कुंज" बुद्ध कालोनी पटना 800001
212.	082163	मि० सेठ अनिल जी कालिका रानीखेत उत्तरांचल अलमोड़ा 263692	220.	083697	मि० महेन्द्र सिंह डी-211 रामप्रस्थ गाजियाबाद 201011
213.	082174	मि० सचदेव सुरिन्दर नाथ मार्फत रिषी देवी गुप्ता 238 आवास विकास कालोनी शसनी गेट अलीगढ़ 202001	221.	084818	मि० अग्रवाल राजीव ए-247 द्वितीय तल सेक्टर-19 नोयडा 201301
214.	082300	मि० सुरेन्द्र कुमार 20/3 शर्मा मार्केट हरोला सेक्टर 5, नोयडा 201301	222.	085065	मि० महादेव प्रसाद 51सी मूर्ति कला कालोनी टोंक रोड जयपुर 302018
215.	082371	मि० जैन नेम चन्द मार्फत शिव आटोमोबाइल्स निकट जजेस कोर्ट नैनीताल रोड भोटिया पड़ाव हल्द्वानी 263139	223.	085765	मि० खुल्लर राकेश कुमार प्लॉट नम्बर 100 सेक्टर-5 टी.एच.ए. राजेन्द्र नगर जिला गाजियाबाद (यू०पी०) साहिबाबाद 201005
216.	082477	मि० अशोक कुमार मैनेजर (एफ एण्ड ए.) ओनजीसी तेल भवन देहरादून 248003	224.	085806	मि० मुरारका तरुण ई-39 सेक्टर 55 नोयडा 203001
217.	082678	मि० सचदेवा राकेश मार्फत मेर्सस आर सचदेवा एण्ड एसोसिएट 1376 सेक्टर-37 यूपी नोयडा 201305	225.	080109	मि० सिंह हरि पाल 30, कृष्णा सहकारी आवास समिति गांधीपुरम हनुमान मंदिर के निकट इज्जत नगर बरेली 243001

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
226.	086144	मि० शर्मा विनोद कुमार सी-85, सेक्टर 2 नोयडा 201301	235.	089299	मि० शर्मा मन मोहन 21 पहली मंजिल निरीक्षण भवन सिविल लाइन्स रुड़की 247687
227.	087224	मि० इन्देश कुमार सी-2 सेक्टर 20 नोयडा 201301	236.	089372	मि० गुप्ता महेन्द्र कुमार 13/392, मानिक चौक यूपी अलीगढ़ 202001
228.	087342	मि० विनीत कुमार 0-4 पहली मंजिल शर्मा मार्केट अट्टा सेक्टर 27 नोयडा 201301	237.	089427	मिस अमृता जी सिंह 26-एफ ब्लॉक बी इन्डोटेक टावर 235 नानडिंग रोड जिला हेलपिंग ताइजीन, पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाइना चाइना
229.	087424	मि० अनिल कुमार अबदिन हाउस फ्रेसर रोड पटना 800001	238.	089796	मि० अग्रवाल संजय 110 सरावोगी मेन्सन एम आई रोड जयपुर 302001
230.	088013	मि० नारायण जय प्रकाश पी ओ बाक्स 1000 दोहा कतार	239.	090009	मि० नन्दा चन्द्र कुमार 16 एकात्मा परिसर राजबन्द मैदान जी ई रोड रायपुर 492001
231.	088031	मि० अतुल कुमार 556, दयानन्द मार्ग फिरोजाबाद 283203	240.	090019	मि० अग्रवाल प्रवीन कुमार 11/765, वसुन्धरा गाजियाबाद
232.	088103	मि० संदीप कुमार 105 नई बस्ती निकट घंटाघर गाजियाबाद 201001	241.	090339	मि० शर्मा विनोद कुमार एच. नम्बर 12/14 चोटिया हाउस पुलिस स्टेशन के निकट झुनझुनु, पीलानी 333031
233.	088811	मि० गिरिधर राजू के सिनियर कंसलटेन्ट एच सी एल इन्फोसिस्टम लिमिटेड ए 10-11 सेक्टर 3, नोयडा 201301	242.	090388	मिस जैन सिम्मी सी 2 सेक्टर 20 नोयडा 201301
234.	089095	मि० बख्शी विक्रम 17/डी-425 वसुन्धरा गाजियाबाद 201012			

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
243.	090744	मि० अग्रवाल ललित एच सी एल कॉमनेट लिमिटेड ए-10/11 सेक्टर - 3 नोयडा 201301	251.	094722	मि० सिंह उमेश प्रसाद शकुन्तल्य निवास विकास नगर लतमा रोड (सिंहमोर) रांची 834003
244.	090921	मि० सुरिन्दर कुमार एल-61 सेक्टर -11 नोयडा 201301	252.	094789	मि० वैश्य उमेश कुमार 1136 गोलाघाट अवनितका टायर के ऊपर सुल्तानपुर 228001
245.	091290	मि० पाण्डेय धनश्याम 2बी- बी 137 वैशाली गाजियाबाद 201001	253.	094969	मि० बलियन योगेन्द्र सिंह बी-14 251 हिमगिरी अपार्टमेंट्स सेक्टर 34 नोयडा 201301
246.	091561	मि० रमाकान्त पासीख स्वास्तिक आयल इन्डस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड के एल दुगर ग्रुप मेन रोड, विराट नगर नेपाल	254.	095026	मि० जैन विजेन्द्र कुमार 88 श्री राम नगर कालोनी एन. इ. बी. हाउसिंग बोर्ड के पीछे (राजस्थान) अलवर 301001
247.	092469	मि० राज प्रकाश खरे डी-149 पंचवटी अपार्टमेंट्स प्लॉट नम्बर बी-9/9 सेक्टर -62 नोयडा 201301	255.	096054	मि० हरीश कुमार आदर्श टेन्ट हाउस दीवान का बाजार (यू.पी.) मुरादाबाद 244001
248.	092784	मिसेज चन्दा पूनम 14-ए भगत सिंह कालोनी हकीकत नगर सहारनपुर 247001	256.	096358	मि० त्रिलोक चन्द 3 मंजिल डी/1 सेक्टर 18, इबोनिय के विपरीत नोयडा
249.	093781	मि० उपाध्याय नवीन पटनी होम जी आइ सी रोड उत्तरांचल पिथौरागढ़ 262501	257.	096396	मि० सिंह विमलेश कुमार डी-133 सेक्टर -20 नोयडा 201301
250.	094467	मि० रथके शरद सी-35 सेक्टर -40 उत्तर प्रदेश नोयडा 201303	258.	096454	मि० जैन विकास के-आई-40 न्यू कवि नगर गाजियाबाद 201002

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
259.	096709	मि० कर्ण सतीश कुमार मार्फत अपक्ष कुमार यादव पोस्ट बाक्स नम्बर, 10269 जी पी ओ, काठमान्डु, काठमान्डु नेपाल	267.	098144	मि० दुबे अमित कुमार जय प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड टैक्सेशन डिपार्टमेंट 64/4 साइट -4 इन्डस्ट्रीयल एरिया (जिला गाजियाबाद) साहिबाबाद
260.	096866	मि० रस्तोगी सूर्य कान्त 14, हीरा मार्केट हापुड़ 245101	268.	098313	मिस रचना मार्फत आसुतोष सदन कालीदाह दूसेत चौराहा विनमहाराज टेम्पल के पीछे मदन मोहन घीरा वृन्दावन मथुरा
261.	096952	मि० जैन अनुपम मार्फत श्री महेश चन्द्र जैन एडवोकेट कोटला रोड फिरोजाबाद 283203	269.	098565	मि० अग्रवाल मुकुल स्टील अथार्टी आफ इंडिया लिमिटेड सेल/बोकारो स्टील प्लांट बिहार बोकारो 827001
262.	097058	मि० शारदा सुजीत 302/18 18 सिविल लाइन्स न्यू हरिद्वार रोड, जिला रुड़की रुड़की	270.	098669	मिस जैन रितु एच सी एल टेक्नोलाजी लिमिटेड ए-10 एण्ड 11, सेक्टर -3 नोयडा 201301
263.	097083	मि० बल्दी राजेश 1ए-22 आर सी व्यास कालोनी निकट राजीव चौराहा (राजस्थान) भीलवाड़ा 311001	271.	099269	मि० श्रीवास्तव मनीष बी-605 ओसीआर काम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ 226001
264.	097194	मि० वासुजा सतीश कुमार ए-41 सेक्टर-39 नोयडा 201305	272.	099854	मि० झा अशोक कुमार इ-28, सेक्टर-30 नोयडा 201303
265.	097757	मि० रविन्दर कुमार एच. नम्बर 584 सेक्टर 29 नोयडा 201301	273.	099862	मि० पोरवाल आलोक एच नम्बर 182 काली देवी रोड महावीरगंज औरैया 206122
266.	098033	मि० सिंह अमरीक मार्फत डा० संगत सिंह एम एस एम इक्बालपुर तेह रुड़की जिला हरिद्वार रुड़की 247668			



क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
274.	100960	मिसेज क्याल डिम्पल यूएल-...मंजिल अंबर टावर संसार चन्द रोड जयपुर 302001	281.	108776	मि० जैन मनीश कुमार पुत्र श्री जम्बू कुमार जैन रनवका गली सारंगी मोहाल ब्यावर 305901
275.	103204	मि० अग्रवाल मनोज सत्यनारायण श्री गणेश मंडार सरायगंज मुजफ्फरपुर 842001	282.	110644	मि० रथी आशीष.एन के 316 जयराम काम्प्लेक्स शारदा चौक रायपुर 492001
276.	103268	मि० सिसौदिया राजेश हेमन्त कुमार पुत्र एच.के. सिसौदिया सैंचुरी पल्प एण्ड पेपर लालकुआं नैनीताल 262402	283.	111321	मि० संजय कुमार जैन डी/88 सेक्टर -4 देवेन्द्र नगर रायपुर 492002
277.	103451	मि० अनिल कुमार पोखरना विपुल हाउस निकट कल्पतरु हास्पिटल 155, सेक्टर नम्बर 3 हिरन मार्गी उदयपुर 313002	284.	113161	मिस स्वेता प्रकाश नलवाया पी-519 सेक्टर 21 जलवायु विहार नोयडा 201301
278.	105429	मि० विड़ला प्रकाश अदा बाजार फुफलिया स्ट्रीट जोधपुर 343001	285.	201558	मि० कृष्णन एल मार्फत श्री मेथ्यू अब्राहम आर-3 रायल रेजीडेंसी बिचौली मर्दना रोड इंदौर 452001
279.	105557	मि० तोसनीवाल विनोद कुमार गोकुल राय जी मोरा स्ट्रीट तोसनीवालो का नोहेरा भीड़वाला 311001	286.	203728	मिस शान्ति श्रीकान्त कैनरा बैंक रीजनल आफिस ब्लाक 3 पर्यावास भवन अवेरा हील्स भोपाल 462011
280.	105988	मि० अमित गोयल डी-25 बापू नगर गणेश मार्ग जयपुर	287.	206127	मि० सुदर्शन शर्मा पी एस एसोसियेटेड कन्सल्टेन्ट पोलारिस साफ्टवेयर लेब लिमिटेड बी-19 सेक्टर 2 गौतम बुद्ध नगर नोयडा 201301

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
288.	207146	मि० राजी पी फाइनैस आफिसर फाइनैस एण्ड एकाउन्ट्स डिप विकास भवन कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन एन.टी.पी.सी. लिमिटेड जमनीपल्ली (एम.पी.) कोरबा 495450	295.	400235	मि० शर्मा विवेक मार्फत विराज हास्पिटल देवरसीयन रोड खारगोन 451002
289.	400000	मि० अग्रवाल अमित कुमार 101, रायल स्टेट 9/2 साउथ टुकोगंज इंदौर	296.	400389	मि० रावका अभिषेक कुमार रावक सदन एफ/11 एमआईजी रिषी नगर कालोनी उज्जैन 456010
290.	400031	मि० जिजानी अमित कुमार सरस्वती मार्केट अपर बाजार रौंछी 834001	297.	400400	मि० राय हरे राम 173-ए न्यू प्रोफेशनल प्लैट्स के एस लीक रोड कदमा जमशेदपुर 831005
291.	400053	मि० जैन अनिल कुमार 21 बसंत नगर माल रोड निकट क्राइस्ट चर्च मोरार ग्वालियर 474006	298.	400410	मि० गुप्ता जुगगी लाल मार्फत राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पोददर पारा जिला - धनवाद झरिया 828111
292.	400104	मि० गुप्ता श्याम लाल 61 नतनी भवन इंदरा कालोनी अलवर 301001	299.	400457	मि० अजय कुमार 163/6 बाबू पुरवा किदवई नगर कानपुर 208011
293.	400110	मि० अग्रवाल अखिल मेसर्स रिफिरोन मेन रोड (झारखण्ड) चक्रधरपुर 833102	300.	400542	मि० शुक्ला यशवर्धन 111/ए/79 अशोक नगर कानपुर 208012
294.	400168	मि० शर्मा कन्हैया लाल मार्फत श्री रविन्द्र कुमार शर्मा पुराना बाजार पोस्ट एण्ड विलेज जबनर जयपुर 303328	301.	400589	मिस० सिंह प्रियंका बी-65 सेक्टर -जे रेल नगर जेल रोड लखनऊ 226012

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
302.	400679	मिस जैन अलपा ए-4 कृष्णा नगर- प्रथम गांधी नगर क्रासिंग टैक रोड जयपुर 302001	310.	400779	मि० दिखानी विजय कुमार 183/6-ए-मोती नगर क्यून्स रोड जयपुर 302021
303.	400694	मि० जैन तनुज रैन बसेरा 12-ए राम सिंह मार्ग निकट इनफार्मेशन सेन्टर जयपुर 302004	311.	400818	मि० गुप्ता आशीष कुमार डी-189ए मंगल मार्ग बापू नगर जयपुर 302001
304.	400695	मि० गोयल विशाल 14/1 न्यू बलासिया इंदौर 425001	312.	400871	मि० पाण्डे दीपक एफ-10ए 11 खुशनुमा काम्पलेव 7 आर एफ बहादुर मार्ग निकट स्टेट गेस्ट हाउस लखनऊ 226001
305.	400717	मि० गर्ग मोहित 28/355-ए गुदरी मनरू खा आगरा 282003	313.	401101	मि० जैन संजय कुमार पुत्र श्री संपत लाल जैन पोस्ट नावानिया वाया बल्लभनगर जिला उदयपुर उदयपुर 313601
306.	400724	मि० एस. आर. कुमारन एमएस-83 सेक्टर -डी अलीगंज, लखनऊ 226001	314.	401140	मि० अरोड़ा रोहित एल. आई. जी. 26 रतनलाल नगर कानपुर 208022
307.	400741	मि० अग्रवाल मन्द किशोर एस-52, 52 अग्रसेन टावर सेन्टर स्वाइन विद्याधर नगर जयपुर	315.	401228	मि० बोहरा अजीज 98, इब्राहिम मंजिल लोहा बाजार उदयपुर 313001
308.	400760	मि० जजौदिया नितिन 4 मंगल कार्लोनी गांधी नगर अजमेर रोड व्यावर 305901	316.	401245	मि० जैन मनीश वी केसलियावाला निवास राधा बल्लभ वार्ड सिनेमा रोड करेली नरसिंहपुर 487221
309.	400764	मि० जगेतिया राम सहाय बाजार नम्बर 2 के पीछे मोपाल गंज भीलवाड़ा 311001			

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
317	401296	मि० बंसल रविन्द्र ए-19/टावर-2 सहयोग अपार्टमेंट सेक्टर -6 विद्याधर नगर जयपुर 302012	325	401958	मि० मंत्री अभिषेक मार्फत मंत्री आइरन ट्रेडर्स ब्लू कैसल पदव अजमेर 305001
318	401366	मिस० सिंधवी श्वेता 15 कोसमो कालोनी वैशाली नगर आर्मपाली रोड जयपुर 302001	326	401996	मि० मंगल मोहित डी-114 एस बी आई आफिसर्स फ्लैट हसनपुरा खाटीपुरा रोड जयपुर 302006
319	401532	मि० लोहिया रोहित मार्फत आर के मार्केट बटरगंज लहेरियासराय दरभंगा 846001	327	402059	मि० अंचलिया अभिषेक 40-बी इन्द्रप्रस्थ काम्पलेक्स दिल्ली गेट के निकट उदयपुर 313001
320	401604	मि० महर्षि शाण्डिल्य बी-2127 इंदरा नगर लखनऊ 226016	328	40207	मि० गर्ग उमेश 118/10 सिविल लाइन्स अजमेर 305006
321	401693	मि० अग्रवाल प्रदीप कुमार 4-विद्युत अभियन्ता कालोनी मालवीय नगर जयपुर 302017	329	500134	मि० गुप्ता अमित कुमार डब्लू बी-115, फेस-3 शापिंग काम्पलेक्स राजस्थान भिवाड़ी 301019
322	401802	मि० गोयल प्रतीक 86 आनन्द नगर यूनिवर्सिटी रोड उदयपुर 313001	330	500815	मिस० शर्मा अदिति पूजा प्रिंटिंग प्रेस स्टेशन रोड जिला बिजनौर (यूपी.) धामपुर 246761
323	401834	मि० धर्मवत महेश कुमार 251, फर्स्ट फ्लोर बापु बाजार उदयपुर 313001			
324	401948	मि० अवनिन्द्रा भूषण प्रसाद मार्फत मि० राजीव राजन प्रसाद न्यू नागरा टोली रौंछी 834001			

(डा. अशोक हल्दिया)  
सचिव

## दिनांक 14 दिसम्बर 2004

नं० 3सी.सी.ए.(4)(2)/2003-2004 चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान विनियम सन् 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1(क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यों रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्न लिखित सदस्यों के नाम उनके आगे दी गयी तिथियों से हटा दिया गया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
1.	003795	मि० मिश्रा पद्मधारीनाथ जसवंत मेनशन वीर सावरकर मार्केट 27 बक्सी गली इंदौर 452004	05/05/2003	7.	072758	मि० अग्रवाल प्रदीप इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, मथुरा रिफाइनरी मथुरा 281005	11/01/2003
2.	006432	मि० पारिख रसिकलाल कृष्णादास 405, मौर्य प्लेस 5/1 डायमंड कालोनी इंदौर 452 001	29/12/2002	8.	073161	मि० बंसल योगेन्द्र 278 जोन सेकण्ड महाराणा प्रताप नगर भोपाल 462011	04/03/2003
3.	007738	मि० जैन खेतमल सी - 39 ज्योति मार्ग बापू नगर जयपुर 302015	13/06/2002	9.	075569	मि० बरदिया मुकुल कुमार एम बरदिया एण्ड कम्पनी शाप नम्बर 10, सेकण्ड एफ एल कारपोरेशन मार्केट ज्योति टाकीज के समीप जबलपुर 482002	21/05/2003
4.	008592	मि० साबुहरि नारायण गांधी भवन 14 प्रिन्स यशवंत रोड इंदौर 452004	16/04/2003	10.	084616	मि० रस्तोगी शैलेन्द्र पाकेट सी - 651 सरिता विहार नई दिल्ली 110003	12/06/2003
5.	010140	मि० भार्गव विश्वेश्वर नाथ मेसर्स सिंधी एण्ड कम्पनी 1 पारीक कालेज रोड बानी पार्क जयपुर 320006	08/05/2003	11.	085154	मि० सुभाष चन्द 112/4 पहली मंजिल गंगा शापिंग काम्प्लेक्स सेक्टर 29 नोयडा 201301	02/06/2003
6.	010828	मि० जैन बसंतीलाल करुलाल बी. के. जैन एण्ड कम्पनी 410 जवाहर मार्ग शंकर सदन इंदौर 452004	14/03/2003				

(डा० अशोक हल्दिया)

सचिव

नई दिल्ली-110002, दिनांक 20 दिसम्बर 2004

सं. 1-सी.ए. (7)/80/2004--अधिसूचना संख्या 1-सी.ए.-(7)/56/2001 दिनांक 10 मई, 2001 के अनुसार तथा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम, 1988 के विनियम, 159 (1) के अनुसरण में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इंडिया की परिषद् ने दिनांक 1 मई, 2001 से पंचकुला में उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की स्थापना को अधिसूचित किया था। विनियम 159 के उपबन्धों के साथ पठित प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं के कृत्यों के बारे में, (जैसे कि चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम 159 के परिशिष्ट संख्या 7 में अन्तर्विष्ट हैं), परिषद् के निदेशों के निदेश संख्या 53 के अधीन परिषद् में निहित शक्ति के निबन्धानुसार परिषद् ने उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद् की पंचकुला शाखा की स्थापना विषयक अधिसूचना को दिनांक 16 सितम्बर 2004 से रद्द करने का निर्णय किया है। तदनुसार, ऊपर निर्दिष्ट अधिसूचना को, एतद्वारा, वापस लिया जाता है।

डा. अशोक हल्दिया  
सचिव

सं. 1-सी.ए. (7)/81/2004--पूर्वतर अधिसूचना संख्या 28-आर.सी./(4)/15/87 दिनांक 6.4.1987 के आंशिक उपान्तरण में तथा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इंडिया की परिषद् विनियम 159 के अधीन यह अधिसूचित करती है कि रामगढ़ कैन्ट को, तुरन्त प्रभाव से, केन्द्रीय भारत प्रादेशिक परिषद् की रांची शाखा के क्षेत्राधिकार के अधीन रखा जाता है।

डा. अशोक हल्दिया  
सचिव

भारतीय भेषजी परिषद्

(भेषजी अधिनियम 1948 के अंतर्गत स्थापित)

फाईल संख्या : 15-4/2001 (पार्ट.ए.)-पी.सी.आई.--भारतीय भेषजी परिषद् के 73वें केन्द्रीय अधिवेशन, 24 और 25 सितम्बर, 2004 में प्रारित निम्नलिखित "कार्यकारी आदेश" को भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 15-क (4) में विहित प्रावधानों के तहत राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

"कार्यकारी आदेश"

"धारा 15-क (4) में विहित प्राधानों के तहत, भारतीय भेषजी परिषद् ने, राज्य भेषजी परिषदों से प्राप्त पंजीकृत भेषजज्ञों के आंकड़ों का संकलन किया है। संबंधित आंकड़ों को भारतीय भेषजी परिषद् के कार्यालय में निम्नलिखित पते के साथ संबंधित राज्य भेषजी परिषदों में जन साधारण के लिए रखा गया है :--

भारतीय भेषजी परिषद्  
संयुक्त परिषद् भवन  
टेम्पल लेन, कोटला रोड़,  
ऐवान-ए-गालिब मार्ग,  
नई दिल्ली-110002"

अर्चना मुद्गल  
निबंधक-एवं-सचिव

**RESERVE BANK OF INDIA**  
**DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS**  
**CENTRAL DEBT DIVISION**

Mumbai, the 10th December 2004

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April, 1946 [as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in Extra Ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990], the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended October 2004 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, have any claim upon these securities communicate immediately with The Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai-400 008.

The list has been divided into two parts, List "A" being securities now advertised for the first time and List "B" being the list of securities previously advertised :—

List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
New Delhi Circle					
4% National Defence Loan 1972					
DH-000054	Rs. 10,000/-	State Bank of India	8.11.65	Ram ... Inter College,	PDO/DT/LN-2/2004 dated 12.10.2004
DH-000055	Rs. 10,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
Kanpur Circle					
National Defence Gold					
KN-000306 'A' Series GPN	49 Gms	Nirmal Asija	01.11.196	Nirmal Asija	GMs order dated 26.10.04 Diary No. 1R/824/81 dated 26.10.2004.
Mumbai-Byculla Circle					
9% Relief Bonds 1999 (Demat)					
BCN 012299 (GPH)	Rs. 6,00,000/-	Dharam Chand Mehta (Deceased)	11.12.1999	Pushpa Mehta	06.25.84 dated 03.12.03
List "B"					
Mumbai, Byculla Circle					
10% Relief Bond 1995					
BC-014074 (GPH)	Rs. 50,000/-	Shobhana Maheshwar Khare and Charusheela Ajit Shete	5.9.1998	Shobhana Maheshwar Khare and Charusheela Ajit Shete	06.25.85 21.2.04
Kolkata Circle					
9% Relief Bond 1999					
CA 001535 (GP Cum)	Rs. 30,000/-	Dr. Dipak Kumar Ghosh Mrs. Prema Ghosh Miss Satarupa Ghosh	—	Dr. Dipak Kumar Ghosh Mrs. Prema Ghosh Miss Satarupa Ghosh	File No. I-2556 GM's Order dated 14.9.2004 DY.No. LCO-46/04-05 dated 4.10.2004
10% Relief Bond 1995					
CA 001311 GP-NC	Rs. 2,00,000/-	Surat Kumar Das (Deceased) and Susmita Das	01.01.1997 to 20.8.2001	Susmita Das	File No. I-2555 GM's Order dated 14.9.2004 DY.No. LCO-47/04-05 dated 4.10.2004
New Delhi Circle					
9% Relief Bond 1999					
DH 001780	Rs. 25,000/-	V. M. Saksena	—	V. M. Saksena	PDO/DT/LN-3/2004 dated 2.8.2004
Mumbai (Fort) Circle					
National Defence Gold Bond 1980 (B series)					
BY 014051	826 Grams Gold	Yeshwant. N. Shah (Deceased)	10th Annual	Rajendra Y. Shah	GM's Order dated 5.8.04, C.O. Diary No. 77. dated 6.8.2004
BY 01452	125 Grams Gold	-do-	-do-	-do-	-do-

A. S. MOHINANI  
Asstt. Manager

**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**

New Delhi, dated 9th December 2004

No. U-16/53/99/Med.II (Raj.) :—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024 (G) dated 23.5.1983, I hereby authorise Dr. Mahesh Chandra Sanadhya, PTMR to function as Medical Authority for Rajasthan Centre for the period of one year from 6.7.2004 to 5.7.2005 for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Rajasthan for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

DR. KAMLESH KALRA  
Medical Commissioner

**REGIONAL OFFICE MAHARASHTRA**

Mumbai-13, dated 7th December 2004

No. 31-V-34-11/L.Cs/Co-Ordn.—It is hereby notified that the Local Committee set up vide this office notification No. 31-V-34-11 (57) Co-Ordn. dated 17.9.89 for Solapur Area under Regulation 10-A-1 of E.S.I. (General) Regulations, 1950 has been re-constituted with the following members with effect from the date of notification.

**CHAIRMAN****UNDER REGULATION 10-A-1(a)**

1. The Assistant Labour Commissioner,  
Solapur.

**MEMBERS****UNDER REGULATION 10-A-1 (b)**

2. Government Labour Officer, Solapur,  
Office of the Assistant Labour Commissioner,  
52-A, railway Line, Solapur.

**UNDER REGULATION 10-A-1 (c)**

3. Administrative Medical Officer,  
Pune.
4. Medical Superintendent,  
E.S.I.S. Hospital, Pune.

**UNDER REGULATION 10-A-1 (d)**

5. Shri Arvind Balkrishna Kulkarni,  
Factory Manager,  
Jam Mills Company Ltd.  
Fattechand Damaninagar, Station Road,  
Solapur-413001.
6. Shri Pandurang Nagappa Dasari,  
Mill Manager,  
Narsing Giriji Mills, Solapur.
7. Shri Jaikumar Kalgunda Patil,  
Industrial Estate, Hotgi road,  
Solapur.
8. Shri Sidramappa Narasayya Chilkha,  
Dattanagar, Solapur.

**UNDER REGULATION 10-A-1 (e)**

9. Shri Shatrughna Tukaram Chatake,  
Old Mill Chawl, Room No. 2904,  
Morarji Peth, Solapur.
10. Shri Deepak Ambadas Salunke,  
14, Railway Line, Bhayya chowk,  
Solapur.
11. Shri Bharat Sidam Kapase,  
Vidi Gharkool,  
Solapur.
12. Shri Prakash Waman Patil,  
Hotgi Road, N.G. Mill Colony,  
Solapur.

**UNDER REGULATION 10-A-1 (f)**

13. The Manager,  
Branch Office Solapur,  
E.S.I. Corporation.

By Order

A. K. SINHA  
Additional Commissioner



**EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION  
(CENTRAL OFFICE)**

New Delhi-66, the

No. C.P.F.C. 1(4)2143/2004/MH/ Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:-

<u>S.No.</u>	<u>Code No.</u>	<u>Name &amp; address of the estt.</u>	<u>Date of Coverage.</u>	
1.	MH/46948	M/s Oasis Shipping Pvt.Ltd.	01.01.04	01.01.04
2.	MH/47045	M/s Hindustan Insecticides.	01.04.04.	01.04.04.
3.	MH/105209	M/s PISE Manufactures	10.03.03.	10.03.03.
4.	MH/52160	M/s Parishram Magesvargiya Ghankam Mazooranch Audyogik Sahakari Sanstha Ltd.	16.08.03.	16.08.03
5.	MH/52249	M/s Samt Baba Haradasram Nagri	21.12.03.	21.11.03
6.	MH/52161	M/s D.P.P.Service	19.08.03	19.08.03.
7.	MH/52261	M/s Baglan Taluka Vividh V Vavasjik Sahakari Ltd.	01.12.03.	24.11.03
8.	MH/52228	M/s Alole Taluke Shikshak & Shikshaketer Karmachari Gramin Bigar Sheti Sahakari Patsanstha Maryadit.	16.10.03	16.10.03
9.	MH/46188	M/s Togi Prints	01.07.02.	01.07.02
10.	MH/45972	M/s Sea Bird Surveys Pvt Ltd.	01.04.02.	01.04.02
11.	MH/45717	M/s Roan Enterprises.	01.07.01	01.07.01
12.	MH/NK/52194	M/s Neat Wind Industeies.	19.09.03.	19.09.03
13.	MH/AB/81412	M/s Siddharth Skaktishali Security Gards & Labour Servie	01.02.04	02.02.04
14.	MH/AB/81461	M/s Mahatma Fale Magaswardiya Karmachari & Teacher Co-op Society Ltd.	14.12.03	14.12.03
15.	MH/AB/81413	M/s Shashan Anudenit Sheta Karmachri Kalyan Sahakar Path Sanstha Ltd.	14.12.03	14.12.03
16.	MH/AB/81399	M/s Nasejan Baba Hamal Co-op Society	13.11.03	13.11.03
17.	MH/AB/81484	M/s Deendayal Research XXXXXM Institute's Krishi Vigyan Krndra	22.03.04	22.03.04
18.	MH/61942	M/s Ordanance Factory Consumers Co-op Society Ltd.	13.01.97	13.01.97

19.	MH/46791	M/s Nexpro Solutions	01.08.03	01.08.03
20.	MH/46167	M/s Virginia Transformers ( India ) Pvt. Ltd.	02.05.02	02.05.02
21.	MH/47127	M/s Sterling Exports	01.04.04.	01.04.04.
22.	MH/46784	M/s Saraf Enterprises ( India ) Pvt. Ltd.	01.09.03	01.09.03.
23.	MH/52248	M/s See Ram Industries	01.12.03	18.11.03.
24.	MH/KN/ 52407	M/s Prasa Tool Pvt Ltd.	16.5.04	06.05.04
25.	MH/52232	M/s Rahinj Engineers & Contractors	10.11.03	10.11.03
26.	MH/47053	M/s Prajna Logistics	01.03.04	01.03.04
27.	MH/51983	M/s Niphad Sakhar Kamgar Sabha	07.02.03	07.02.03
28.	MH/51889	M/s M.Y.Engineers Pvt Ltd	10.07.02	10.07.02
29.	MH/52382	M/s The Navi Peth Urban Co-op Credit Society Ltd.	01.04.04	01.04.04
30.	MH/52363	M/s Vijay Nagari Sahakari Patsanatha Maryadit.	04.04.04.	04.04.04.
31.	MH/NK/ 52438	M/s Universal Sakes Corporation	16.06.04	16.06.04
32.	MH/NK/ 52216	M/s Shri Mahavir Nagari Sahakari Patpedhi Maryadit.	01.10.03	26.09.03
33.	MH/AB/ 81348	M/s Mahodaya Hybrid Seeds Pvt. Ltd.	09.08.03	09.08.03
34.	MH/105326	M/s Indira Shramik Mahila Nagari Sahakari Bank.	28.06.04	28.06.04
35.	MH/105339	M/s S.S.Kore Engineers and Contractors	26.07.04	26.07.04
36.	MH/46209	M/s Master Computer Service.	01.07.02.	01.07.02
37.	MH/46396	M/s Sun Industrial Estate Premises Co-op Society Ltd.	01.07.03	01.07.03
38.	MH/50124	M/s Raja Harishchandra Gramin Bigar Sheti Sahakari Patsanstha Maryadit.	01.06.04.	29.05.04
39.	MH/47138	M/s Shree Riddhi Siddhi Sahakari Patsanstha Maryadit.	01.04.04.	01.04.04.
40.	MH/51911	M/s B.A.Logistics	01.04.02	01.04.02
41.	MH/46639	M/s Bharat Aviation	12.06.03	12.06.03
42.	MH/47143	M/s Jai Ram Print Art.	01.04.04.	01.04.04
43.	MH/46292	M/s Shree Siddivinayak	01.09.02	01.09.02

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

S. R. JOSHI  
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4)2136/2004/GJ/ whereas it

appears to the Central Provident fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:

S.No.	Code No.	Name of Establishment	Date of Coverage	& Consent
1.	GJ/SRT/ 33160	M/s Shri Madhi Vibhay Nagrik Dhisam Mandali Ltd.	01.04.03	01.04.03
2.	GJ/SRT/ 33350	M/s Market Auto Centre	01.12.03	01.12.03
3.	GJ/SRT/ 33241	M/s Ex-Serviceman Co-op Service Society Ltd.	08.10.03	08.10.03
4.	GJ/SRT/ 33443	M/s K.A.S.Distributors	05.04.04	05.04.04
5.	GJ/SRT/ 33450	M/s Vidyut Utkarsh Sahakari Mandali Limited.	26.04.04	26.04.04
6.	GJ/SRT/ 33354	M/s J.C.Machinery P. Ltd.	01.12.03	01.12.03

Now, therefore, in exercise of the powers Conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

S. R. JOSHI  
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-66, the 13th Decem. ber 2004

No.CPFC.1(4)2146/2004/KR/65625 Whereas it

appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952(19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:-

S.No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage	Date of Consent
1.	KR/15175	M/s Alleppey Cooperative Spining Mills Limited.	09.11.95	09.11.95
2.	KR/16857	M/s Christu Jyothi English School,	01.01.04	29.12.03
3.	KR/16933	M/s Canossian Convent Nursery School.	01.06.04	31.05.04
4.	KR/16934	M/s Maxwealth Capital Services( P ) Ltd.	02.06.04.	02.06.04
5.	KR/19639	M/s Holy Trinity School	01.02.03	01.02.03
6.	KR/16512	M/s S.N.D.P.Yogam Office	21.10.99	21.10.99
7.	KR/KK/17809	M/s Wire Net India	01.10.03	17.09.03
8.	KR/KNR/18248	M/s Dhanwanthari Centre Kasar god.	08.07.04	08.07.04
9.	KR/KC/19323	M/s Thilakom Foods	01.03.99	01.03.99
10.	KR/19330	M/s S&G Associates	01.03.99	01.03.99
11.	KR/19372	M/s FC Information & Technology Services( P ) Ltd.	30.03.01	30.03.01
12.	KR/KC/19600	M/s Azheekkal Sree Varaha Devaswam	01.10.02	01.10.02
13.	KR/19914	M/s Hi-Tech Electronics	01.04.04	01.04.04
14.	KR/KC/19928	M/s Aggeenco Videsh Pvt Ltd.	01.01.04	01.01.04

Now, therefore, in exercise of the powers Conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

S. R. JOSHI  
Regional Provident Fund Commissioner

No.C.P.F.C.1(4)2147/2004/TN/65625 Whereas it

appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952(19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:-

S.No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage	Date of Consent
1.	TN/CB/21828	M/s Industrial Aids	24.04.89	24.04.89
2.	TN/CB/28947	M/s Jaganath Processors	01.10.95	01.09.95
3.	TN/CB/33582	M/s Sri Ramakrishna Engineering College.	24.10.96	24.10.96
4.	TN/CB/45624	M/s St. Francis Convent Nursery School.	25.10.99	25.10.99
5.	TN/50708	M/s Arch Tech India ( P ) Ltd.	01.05.04	01.05.04
6.	TN/56675	M/s Nataraj Wood Industries (P) Ltd.	23.06.03	23.06.03
7.	TN/MD/57070	M/s Eswari Punching Works	01.06.04	01.06.04
8.	TN/50503	M/s Bakya Fast Foods	22.09.03	22.09.03
9.	TN/CB/28916	M/s Alagendran Autos (P)Ltd.	01.10.95	01.10.95
10.	TN/MD/42808	M/s Navajeevan Child Development Centre.	27.01.03	27.01.03
11.	TN/MD/42874	M/s Gajendran Engineering Fabricator.	01.03.03	01.03.03
12.	TN/MD/42938	M/s Sp(Spl)86,Nalloor P.A.C. Bank.	01.08.03	01.08.03
13.	TN/MD/42941	M/s Sp.Spl.89,Nerthiruppu P.A.C.Bank.	01.08.03	01.08.03
14.	TN/MD/42965	M/s Saranya Power Tools	18.12.03	18.12.03
15.	TN/TT/46973	M/s T.T.Kadayanallur Teachers Co-op Thrift and Credit Society.	01.08.02	01.08.02
16.	TN/50227	M/s SPAGO	25.02.03	25.02.03
17.	TN/50335	M/s Balaji Electric Works	29.05.03	29.05.03
18.	TN/50513	M/s Sai Securities & Consultants Pvt. Ltd.	22.10.03	22.10.03
19.	TN/TT/55119	M/s Rali Engineering Works	20.05.03	20.05.03
20.	TN/TT/55133	M/s Institute of Rural Technology And Development	03.07.03	03.07.03
21.	TN/MD/57016	M/s A.2031, Batlagundu Co-op Housing Society Ltd.	01.03.04	01.03.04

22. TN/MD/57050	M/s Yessar Agencies	01.05.04	01.05.04
23. TN/MD/57051	M/s Rohini Metals	01.05.04	01.05.04
24. TN/MD/57054	M/s S.S.Chelliah	02.05.04	02.05.04
	Nadar Nanayam Super Market		
25. TN/MD/57060	M/s Q 671 T.Meenachipuram		
	PAC Bank	01.05.04	01.05.04
26. TN/MD/57091	M/s Meenachchi Medical Mart.	01.07.04	01.07.04
27. TN/TI/55217	M/s Kanyakumari Benefit Fund Ltd.	07.05.04	07.05.04
28. TN/ANB/65113	M/s Veera Savarkar Netaji Matriculation School.	01.07.01	20.06.01
29. TN/65269	M/s Himcons Engineer- ing Works.	01.10.02	18.09.02
30. TN/ANB/65526	M/s NDT Supplies	01.03.04	22.02.04

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

S. R. JOSHI  
Regional Provident Fund Commissioner

No.C.P.F.C.1(4)2149/2004/KN/ Whereas it

appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952(19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:-

S.No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage	
1.	KN/38039	M/s Subrahmanya Kamath	01.12.03	01.12.03
2.	KN/20810	M/s R.K.Job Contractor	01.03.03	01.03.03
3.	KN/26353	M/s Global Envirotech	23.04.04	23.04.04
4.	KN/26436	M/s Techwave Infosolution Pvt Ltd.	14.06.04	14.06.04
5.	KN/26350	M/s Larsen Enterprises Ltd.	15.04.04	15.04.04
6.	KN/26460	M/s M.S.R Enterprises.	01.07.04	01.07.04
7.	KN/HBL/27019	M/s Savadi V.S.S.Bank Ltd.	01.02.01	01.02.01
8.	KN/HBL/17733	M/s Baradur V.S.S. Bank Ltd.	02.10.98	02.10.98
9.	KN/25627	M/s St Marks Public School	28.08.02	28.08.02
10.	KN/20990	M/s Constrengin Corporation	01.09.03	01.09.03
11.	KN/34478	M/s Innova Team Software Pvt Ltd	01.01.04	01.01.04
12.	KN/35370	M/s Sakti Technologies Pvt.	01.04.03	07.03.03
13.	KN/HBL/17105	M/s Karnataka Liners.	01.10.94	17.09.94

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

S. R. JOSHI  
Regional Provident Fund Commissioner

No.C.P.F.C.1(4)2150/2004/DL/ whereas it appears to the Central Provident fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:

S.No.	Code No.	Name of Establishment	Date of Coverage	& Consent
1.	DL/27097	M/s Conferences & Incentive Management ( I ) Pvt Ltd.	01.04.03	01.04.03
2.	DL/24689	M/s U.G.Engineering Service	06.08.01	06.08.01
3.	DL/26218	M/s Legion Clubs Pvt. Ltd.	05.09.02	05.09.02
4.	DL/25085	M/s Human Reproduction Research Centre.	02.08.04	02.08.04
5.	DL/26823	M/s Pace Express Travel & Cargo Pvt. Ltd.	20.02.03	20.02.03

Now, therefore, in exercise of the powers Conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

S. R. JOSHI  
Regional Provident Fund Commissioner



No.C.P.F.C. 1 (4) 2152/2004/UP, GJ, PN. whereas it appears to the Central Provident fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:

S.No.	Code No.	Name of Establishment	Date of Coverage & Consent	
1.	PN/15604	M/s Sri Guru Teg Bahadur College for Women	01.11.90	01.11.90
2.	PN/24917	M/s The Barnala Co-op Marketing Cum Processing Society Ltd.	31.01.04	31.01.04
3.	PN/24843	M/s The Ahmedgarh Co-op Marketing-Cum.Processing Society Ltd.	20.11.03	20.11.03
4.	PN/24953	M/s The Tapa Co-op Marketing Cum-Processing Society Ltd.	11.03-04	11.03.04
5.	UP/26429	M/s G.Sharma & Co. Pvt Limited.	1.12.03	1.12.03
6.	UP/32627	M/s Rakesh Kumar H & T Contractor.	7.3.02	7.3.02
7.	GJ/SRT/ 33494	M/s Manaekpur Vivdh Karyakari Khedut Sahakari Mandli Ltd.	1.4.04	1.4.04
8.	GJ/SRT/ 32360	M/s EN-PRO Project and Engineering Service	1.4.01	1.4.01

Now, therefore, in exercise of the powers Conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

S.R. JOSHI  
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1 (4) 2151/2004/Goa/ , whereas it appears to the Central Provident fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:

S.No.	Code No.	Name of Establishment	Date of Coverage	& Consent
1.	Goa/11383	M/s Laxmi manpower Service	28.4.03	28.04.03
2.	Goa/11421	M/s HNA Instruments & Controls Pvt. Ltd.	18.08.03	18.08.03
3.	Goa/11381	M/s Simem India Pvt Ltd.	01.06.03	19.05.03
4.	Goa/11228	M/s Institute of Maritime Studies.	12.07.02	12.07.02
5.	Goa/11262	M/s RBA Exports	03.09.02	03.09.02
6.	Goa/11459	M/s D.K.Enterprises'	17.12.03	17.12.03
7.	Goa/11380	M/s Putz Pums ( India )	01.06.03	13.05.03

Now, therefore, in exercise of the powers Conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

S. R. JOSHI  
Regional Provident Fund Commissioner

No.C.P.F.C.1(4)2153/2004/KN/ Whereas it

appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952(19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:-

<u>S.No.</u>	<u>Code No.</u>	<u>Name &amp; address of the estt.</u>	<u>Date of Coverage.</u>	
1.	KN/26295	M/s Suresh Nursery Korticul Turist.	27.02.04	27.02.04
2.	KN/26138	M/s Bangalore Education Trust	01.12.03	30.08.03
3.	KN/26456	M/s Evident Software India Pvt. Ltd.	06.07.04	06.07.04
4.	KN/26012	M/s Sindhu Engineering Company	22.08.03	22.08.03
5.	KN/26049	M/s Quality Auto Products Pvt Ltd.	14.08.03	14.08.03
6.	KN/25009	M/s Epsilon Control & Automa- tion.	01.02.01	15.01.01
7.	KN/26419	M/s Nickerson-Zwaan Seeds Pvt. Ltd.	15.06.04	15.06.04
8.	KN/35224	M/s Team Lease Service Pvt. Ltd	30.04.02	30.04.02
9.	KN/20577	M/s Brahmadeva Welders & Fabricators	01.11.01	01.11.01
10.	KN/20964	M/s Dharmasthala Halu Utpadakara Sahakara Sangha.	01.08.03	30.07.03
11.	KN/20963	M/s Ainakidu Subrahmanya Primary Agricultural Credit Co-op Bank Ltd.	01.09.03	31.08.03
12.	KN/20944	M/s Omsun Electricals	01.08.03	30.07.03
13.	KN/38073	M/s Mangalore Teachers Co-op Credit Society Ltd.	01.01.04	01.01.04
14.	KN/36120	M/s K.S.R.T.C.Staff and Workers Credit Co-op Society.	01.10.03	01.10.03
15.	KN/26122	M/s The Bank of India Staff Co-op Credit & Thrift Society Limited.	01.12.03	27.11.03
16.	KN/HBL/ 27283	M/s V.S.S.Bank	01.02.03	25.01.03
17.	KN/19999	M/s Citlix Systems India Pvt. Ltd	31.05.97	23.05.97
18.	KN/38119	M/s Lobo Engineering	01.06.04	01.06.04
19.	KN/HBL 17789	M/s Jagapura Vyevasya Seva Sahakari Bank Niyamit	01.03.99	01.03.99
20.	KN/HBL/ 17915	M/s Vyavasaya Seva Sahakari Pank Niyamit.	01.01.00	01.01.00

21.KN/PNY 29442	M/s Venkatadri Enterprises	15.04.03	15.04.03
22.KN/23403	M/s Mayara Analytical Pvt. Ltd.	25.11.97	25.11.97
23.KN/HBL/ 27284	M/s V.S.S.Bank Ltd.	01.02.03	01.02.03

Now, therefore, in exercise of the powers  
Conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund  
Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned  
establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each  
of the said establishments.

S. R. JOSHI  
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1 (4) 2154/2004/MH/ whereas it  
appears to the Central Provident fund Commissioner that the employer and the majority  
of the employees in relation to the following establishments have agreed that the  
provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952  
(19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:

S.No.	Code No.	Name of Establishment	Date of Coverage	& Conse
1.	MH/115498	M/s Samta Berojgar Seva Saha- kari Sanstha Ltd.	01.08.03	01.08.03
2.	MH/46407	M/s Kotak Mahindra Investment Limited.	01.01.03	01.01.03
3.	MH/45845	M/s Forbes Sea Consortium India Limited.	01.09.01	01.09.01
4.	MH/KP/ 100378	M/s Shri Laxmi Nagri Sahakari Pat Sanatha Maryadit	31.10.98.	31.10.98
5.	MH/46727	M/s Asha Clearing Agency Pvt. Ltd	01.07.03	01.07.03
6.	MH/47059	M/s Ozone Tech Automation	01.04.04	04.04.04
7.	MH/47031	M/s McDowell Alcocobew Ltd.	26.03.04	26.03.04
8.	MH/46469	M/s Amar Clearing Service	01.02.03	01.02.03
9.	MH/47183	M/s Pat-a-Cake	01.06.04	01.06.04

Now, therefore, in exercise of the powers  
Conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund  
Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned  
establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each  
of the said establishments.

S. R. JOSHI  
Regional Provident Fund Commissioner

# THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Kanpur-208001, the 29th November 2004

(Chartered Accountants)

3CCA(4) (3)/2003-2004 : In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, It is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20 (1) (c) of the chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute with effect from 22/12/2003 on account of non-payment of prescribed fees, the names of the following Members :-

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
1.	003605	Mr. AGGARWAL SATINDER KUMAR VIKARJ 382 SECTOR 15A, NOIDA 201301	8.	030307	Mr. SAHU SANIL PRAKASH DIRECTOR GWALIOR POLYPIPER LTD., INDUSTRIAL AREA MALANPUR, BHIND 477117
2.	008323	Mr. MAITRA SUBRATA KUMAR HRIDESHWAR HOUSE DAMODARPUR ROAD, HIRAPUR, DHANBAD 826001	9.	033262	Mr. BOLIA VIJAY SINGH 5 Q 6 R C VYAS COLONY BHILWARA 311001
3.	009601	Mr. GANDHI KANAIALAL PUNAMCHAND KUWAIT INVESTMENT CO (S.A.K.) PB. NO. 1005, SAFAT, SAFAT-KUWAIT 130011 SAFAT-KUWAIT	10.	037857	Mr. GUPTA MAHENDRA KUMAR OQF-3 J K NAGAR KOTA 324001
4.	009909	Mr. MITTAL GOPAL CHAND 62-A PURANA QUILA LUCKNOW 226001	11.	038722	Mr. DINESH KUMAR PANDEY 709/31, BARAH KOTHI, NAGRA, AJMER 305008
5.	012101	Mr. GUPTA AMAR NATH C-127, SECTOR - 19, NOIDA 201301	12.	042385	Mr. MATHUR KULDEEP 192 KAMLA NEHRU NAGAR CHOPASNI ROAD, JODHPUR CITY, JODHPUR 324001
6.	015480	Mr. MUNDRA RAM PRAKASH OUTSIDE SIWANCHI GATE JODHPUR 342001	13.	043117	Mr. SOMANI SANJAY KUMAR 14, GEL CHURCH COMPLEX 2ND FLOOR, MAIN ROAD, RANCHI 834001
7.	028745	Mr. RAMACHANDRAN R G FLAT NO. 203, GARIMA APARTMENTS 57/58, SHRI NAGAR MAIN, INDORE 452001	14.	045969	Mr. GOYAL NAND KISHOR M/S AL-HASHAR & CO P O BOX - 28, MUTTRAH POSTAL CODE 114, MUTTRAH 114 SULTANATE OF OMAN

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
15.	047794	Mr. JOSHI ASHISH SHANKAR LAL C/O S L JOSHI K-2 AURBINDO ENCLAVE, BEHIND PACHPEDI NAKA, DHAMTARI ROAD, RAIPUR 492001	25.	056005	Mr. MANDHANA OM PRAKASH 131/5 M P NAGAR ZONE II, BHOPAL 462011
16.	050038	Mr. JAIN SHALIN CHANDRA 102, N W GOLF LINK APARTMENTS 98, PARK ROAD, LUCKNOW 226001	26.	056020	Mr. BANDYOPADHYAY SOUMIK F-223 RAM VIHAR SECTOR 30, NOIDA 201 303
17.	051891	Mr. SINGH PRAMOD KUMAR P R D A CENTRAL STORE PREMCHAND GOLEMBER, RAJENDRA NAGAR, PATNA 800004	27.	057353	Mr. MUKHOPADHYAY ANIRBAN A-46 SECTOR 26 OPPOSITE KAILASH HOSPITAL, NOIDA 201301
18.	052294	Mr. THARAD CHANDRA KUMAR H/O SHRI D KUBAWAT 15-16 SHIV COLONY, UDAIPUR ROAD, (BEHIND HERO HONDA SHOW ROOM) BANSWARA	28.	058062	Mr. BHAGANIA PRASHANT BHAGANIA HOUSE MAIN ROAD, DIST DHANBAD, JHARIA 828111
19.	053506	Mr. JHA ARBIND KUMAR DY FINANCE MANAGER QTR. C2027 SECTOR - X, KOYALA NAGAR DHANBAD 828005	29.	058585	Mr. LAKHOTIA ROHIT S/O B L LAKHOTIA D D ROAD, DT ARARIA, FORBESGANJ 854318
20.	053652	Mr. JAIN VIVEK CHANDRA 102 N W GOLF LINK APARTMENTS 98, PARK ROAD LUCKNOW 226001	30.	058633	Mr. AGARWAL SACHIN M/S SACHIN AGARWAL & GUPTA MANJUSHREE HOUSE, NEAR UMA TALKIES, PIRMOHANI, PATNA 800003
21.	055163	Mr. MISHRA AMIY KUMAR 103, VISHNU PLACE BORING CANAL ROAD, PATNA 800001	31.	059345	Mr. GHOSH SUBHOJIT ASSTT. MANAGER (F & A) IBP CO LTD (GOVT OF INDIA ENTERPRISE BUSINESS GROUP (PETROLIEUM), E-8 SECTOR-1, NOIDA 201301
22.	055254	Mr. MISHRA ADITYA KUMAR 8 OFFICE ROAD NORTHERN TOWN, JAMSHEDPUR 831001	32.	059552	Mr. PANDA CHANDRAMANI C/O SATYA NARAYAN GUPTA KOTHI DASHERA, BEECH KA MOHALLA, ALWAR 301001
23.	055502	Mr. SETH JAWAHAR DY MANAGER FINANCE TATA ENGINEERING & LOCOMOTIVE CO LTD. CHINHAT INDUSTRIAL AREA, LUCKNOW 226019	33.	060292	Mr. LOHIA ABHISHEK C/O RADHA KISHAN TEXTILES M G ROAD, BIHAR, KATIHAR 854105
24.	055820	Mr. BRIJ MOHAN SONAR B M JEWELLERS SADDANI CHOWK, SADAR BAZAR, RAIPUR 492001	34.	060340	Mr. JAIN SANJAY KUMAR 6-CHA-5 JAWAHAR NAGAR JAIPUR 302004

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
35.	060626	Mr. GOLCHHA MANISH KUMAR C/O GOLCHHA YDYG JUMAN CHOWK, DISTT ARARIA, FORBESGANJ 854318	45.	071020	Ms. KHANNA SWARN MALHIPUR ROAD NEAR JAIN DEGREE COLLEGE, PRADUMAN NAGAR, SAHARANPUR 247001
36.	060722	Ms. RUNGTA ANURADHA SAJAN M/S BAIDNATH SHARMA RICE MILL DT JHARKHAND, CHAKULIA 832301	46.	071078	Mr. RAI KAPIL ROOP M/S KAPIL RAI & COMPANY 107 NAVJEEVAN COMPLEX, 29 STATION ROAD, JAIPUR 302006
37.	060794	Mr. SINGH AJIT KUMAR C/O SURESH PRASAD VIDYAPATI NAGAR, KANKE ROAD, RANCHI 834008	47.	071103	Mr. DAGAR SATYAVIR SINGH SAWAI JAI SINGH HIGHWAY M-5, NEW MARKET BANI PARK, JAIPUR 302006
38.	061903	Mr. BOTHRA SUSHIL KUMAR AGARWAL BOOK DEPOT HIGH COURT ROAD, BILASPUR 244921	48.	071113	Mr. TALWAR SURENDRA KUMAR 38/6, WRIGHT GANJ GHAZIABAD 201001
39.	070063	Mr. NAHTA UTTAM CHAND REGIONAL DIRECTOR DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS, 10/499B, ALLENGANJ, KHALASI LINES, POST BOX NO 137, KANPUR	49.	071218	Mr. AGARWAL SUNIL KUMAR 556 DAYANAND MARG, FIROZABAD 283203
40.	070197	Mr. SODHA RANVIR SINGH NEAR LAXMI DHARAM KANTA HAWA SARAK 22 GODOWN, JAIPUR 302006	50.	071333	Mr. KHINVASARA SUNIL 1705 MINDY LANE PISCATWAY, NJ - 08854, U S A
41.	070634	Mr. LUNIA RAJENDRA KUMAR R S ASSOCIATES LUNIA KOTHI, BHAGWAN MAHAVIR MARG, G. S. ROAD, BIKANER 334001	51.	071334	Mr. SIDDIQUI AHSAN KAMAL 5235 HUNTING FIELD DRIVE MISSISSAU GA L5R2L3, ONTARIO CANADA
42.	070836	Mr. SUNIL KUMAR CHIEF ACCOUNTANT KISAN SAHKARI CHINI MILLS LTD, BISALPUR, PILIBHIT 262001	52.	071343	Mr. GARG SHELENDRA NATH M/S S N GARG & CO. 16-17 MUNICIPAL MARKET, 1ST FLOOR DELHI GARH ROAD, HAPUR 245101
43.	070942	Mr. PANAGARIA GYAN MAL G M PANAGARIA & CO 154, VAKIL COLONY, BHILWARA 311001	53.	071753	MANTRI ANIL KUMAR 324 SHOPPING CENTRE, KOTA 324007
44.	071016	Mr. RAO RAMESH C-25, NEW AGRA OPP CHANDRAWATI SCHOOL, AGRA 282001	54.	071762	Mr. RATTAN KUMAR FINANCE DIRECTOR HERITAGE WOOLEN MILLS LTD, P O BOX 735, ELDORET KENYA
			55.	071790	Mr. GANESAN R 303 MORYA SHRI 41 SRINAGAR EXTENSION, INDORE 452001

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
56	071913	Mr. JAIN MAHENDRA KUMAR 201 AMIT CHAMBERS 5-6 JAORA COMPUND, M Y H ROAD, INDORE 452001	66	072491	Mr. CHATURVEDI DILIP KUMAR DY. FINANCE MANAGER SECL KORBA AREA, PO KORBA COLLIERY, KORBA 495679
57	071917	Mr. GODIKA SANJAY D-1GANESH MARG BAPU NAGAR, JAIPUR 302015	67	072512	Mr. DUTTA ARUN KUMAR MCROBERT HOSPITAL BUNGALOW 14/112, CIVIL LINES, KANPUR 208001
58	071931	Mr. MAHESHWARI MANI KANT FLAT NO 24 KEDAR NATH APPARTMENTS, 5 P BLOCK KAKADEO, KANPUR 208025	68	072645	Mr. BAJPAI KRISHNA KUMAR 621/22 W BLOCK JUHI KALAN, BARRA, KANPUR 208027
59	071939	Mr. PURI HARPREET SINGH GENERAL MANAGER (COMMERCIAL) TMT CARPETS MANUFACTURING (TIAJIN) CO UNIT 10A-B BLOCK A INNOTECH TOWER, 235, NANJING ROAD HEPING DIST, TIANJIN CHINA	69	072765	Mr. SISODIA A S 17-E/400A RAJASTHAN HOUSING BOARD, CHOPASANI, JODHPUR 342001
60	072029	Mr. GUPTA ANIL KUMAR 75/6 HALSEY ROAD KANPUR 208001	70	072838	Mr. SOMANI VIJAY KUMAR C/O INDORAMA IPLIK SAN VE TIC A S VAKIFLAR KOYU, ULAS MEVKIJ , P K 196 CORLU, TEKIRDONG 59800 TURKEY
61	072066	Mr. KHANDELWAL DEEPAK BHUKMARIA BHAWAN G R KA RASTA, JAIPUR 302004	71	072923	Mr. MAHESHWARI SATYANARAYAN G-1 SATYAM 122 VIDHYA NAGAR INDORE 452001
62	072253	Mr. CHADDHA SANJEEV 9 HARI MARG, CIVIL LINES, JAIPUR 302008	72	072965	Mr. JAIN KAJOD MAL 214 GAYATRI NAGAR A DURGAPURA, JAIPUR 302016
63	072287	Dr. JOSHI BUDDHI PRAKASH JOSHI BHAWAN 397/XXVII JONES GANJ, AJMER 305001	73	072991	Mr. MANMOHAN BANSAL 52 SARDARCLUB SCHEME AIR FORCE AREA, JODHPUR 342001.
64	072393	Mr. GOYAL SURENDRA KUMAR C-44 MALVIYA MARG C-SCHEME, JAIPUR 302001	74	073015	Mr. GARG SHASHI KUMAR 1 ASHISH VIHAR ASHISH NAGAR, KANADIA ROAD, INDORE 452001
65	072490	Mr. BHANDARI SUSHIL KUMAR 12/18 MALVIYA NAGAR JAIPUR 302017	75	073023	Ms SHARMA REETA 103 MOHAN NAGAR GOPALPURA BYPASS, JAIPUR 302018



Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
76.	073067	Mr. JAIN SAURABH F-137 SECTOR 41 NOIDA 201303	86.	073873	Mr. JAIN SURESH KUMAR 32 SHANTI NAGAR GAS GODAM ROAD, HIRAN MAGRI SECTOR -3, UDAIPUR 313001
77.	073209	Mr. NENAWATI MAHENDRA SINGH PADAM NIWAS SINDHU NAGAR, BHILWARA 311001	87.	073874	Mr. KAKKAR MANOJ KUMAR HOUSE NO 47 MALVIYA NAGAR, JODHPUR 342011
78.	073410	Mr. SULTANIA SHYAM SUNDER C-71 AMBABARI, JAIPUR 302001	88.	073882	Mr. SINGHAL PRAVEEN KUMAR OPP. PUNJAB NATIONAL BANK, FIRST FLOOR, MODINAGAR 201204
79.	073454	Mr. RAJEEV MOHAN HIG-28, SANCHAAH VIHAR C-58/4, SECTOR - 62, NOIDA 201 301	89.	073940	Mr. CHATURVEDI SANJAY F-11 M BLOCK R K PURI, THATIPUR COLONY, * GWALIOR 474002
80.	073468	Mr. GUPTA SHIRISH KUMAR C/O BASANT LAL GUPTA ADJECENT RAIL BAZAR, INTER COLLEGE DEVI GANJ, FATEHPUR 212601	90.	073948	Mr. WAHI SANJAY 3 RAMESH NIKETAN 4A VALMIKI MARG, LAL BAGH, LUCKNOW
81.	073679	Mr. KHANDELIWAL RAKESH KUMAR S/O SHRI S L KHANDELIWAL ADVOCATE, RAJ KATIR NEAR KATWALI, BHARATPUR 321001	91.	073980	Mr. JOSHI ANIL 247 ASHOK NAGAR. NEAR SUKHADIA MEMORIAL, UDAIPUR 313001
82.	073726	Mr. SANGHVI DILIP KUMAR 209 MANAS BHAWAN EXTENTION R N T MARG, INDORE 452001	92.	074078	Mr. SAXENA DEEPESH 9024 E TOWN AND COUNTRY BLVD MD 21043, ELLCOT CITY U S A
83.	073839	Mr. KHATOR PRAHLAD RAY C/O OM PRAKASH GIRIRAJ, OPP THE BANK OF RAJASTHAN LTD. STATION ROAD BHUPALGANJ BHILWARA 311001	93.	074081	Mr. SHARMA VINOD KUMAR 111-A /403 ASHOK NAGAR, 80 FEET ROAD, KANPUR 208012
84.	073849	Mr. RAJENDRA KUMAR E-3 JUNIOR MIG-27 ARERA COLONY, BHOPAL 462016	94.	074116	Mr. YUGAL KISHORE HOUSE NO 30 BHAGAT KI KOTHI, NEAR PILI TANKI, JODHPUR 342001
85.	073860	Mr. DAFRIA NITIN KUMAR N K DAFARIA & CO 218-B BANSI TRADE CENTRE, 518/5 M G ROAD, INDORE 452 003			

Sl No	MRN	Member Name & Address	Sl No	MRN	Member Name & Address
95	074271	Mr. LATH MAN MOHAN GOVIND HARI 7/98, VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR 302023	106	074959	Mr. CHOWDHRY VINOD 2 KHURSHED BAGH VISHNU NAGAR, LUCKNOW 226004
96	074286	Mr. PAREEK RAVINDRA 303 & 304 SHRI GOPAL TOWER ASHOK MARG AHINSA CIRCLE, C SCHEME, JAIPUR 302001	107	074961	Mr. VIJAY SHANKER 120/99, -1, SAADAT MANZH BELDARI LANE, LALBAGH, LUCKNOW 226001
97	074418	Mr. KEDIA VIJAY KUMAR 26/61-A BIRHANA ROAD KANPUR 208001	108	075060	Mr. AGRAWAL ANIL KUMAR H-1/35 RAM VIHAR, OPP G P O M I ROAD, JAIPUR 302001
98	074427	Mr. SACHDEVA HARISH CHANDRA 306 IIIIRD FLOOR ASTHANA TOWER, 117/H-1/383 PANDU NAGAR, KANPUR 208005	109	075189	Mr. MAHESHWARI GOPAL C/O DC M RETAIL STORE RAILWAY ROAD, DISTT BULANDSHAHR, DIBAI 202393
99	074459	Mr. MISHRA JAYANT 305 SHANIWAR DARPAN BUILDING 27 PRESS COMPLEX A B ROAD, INDORE 452008	110	075286	Mr. SINGHAL SAMIR D-49 SHASTRI NAGAR, MEERUT 250004
100	074563	Mr. CHORDIA AJIT C/O PRITI CHEMICAL (P) LTD POST BOX NO 13, DHANERI, SOJAT CITY 306104	111	075289	Mr. FARSAIYA AKHIL 33/6, SANJAY PLACE AGRA 282002
101	074644	Mr. SHARMA RAVINDRA KUMAR PIONEER HOSPITAL BLDG. OPP ORIENTAL BANK OF COMMERCE, STATION ROAD, SIKAR 332001	112	075317	Mr. JAIN MANOJ 728/2 P L SHARMA ROAD MEERUT 250001
102	074685	Mr. AGRAWAL SANJAY 107 VIKAS BAZAR, MATHURA 281001	113	075366	Mr. SANJAY VARGHESE 124/46/6B GANESH NAGAR MUIROBAD ALLAHABAD 211001
103	074740	Mr. GUPTA SHAILESH CHANDRA C/O SHOBHA VARSHENY, 2/480A, PATEL MARG, VISHNUPURI, ALIGARH 202001	114	075403	Mr. GUPTA ANRUDH 10 GURU MANDAL ASHRAM DEVPUA, HARDWAR 249401
104	074770	Mr. AGARWAL MOHIT 632 DEEPU PALACE THE MALL, KANPUR 208001	115	075453	Mr. GAGGAR SURESH CHANDRA NEAR GAGGAR'S TEMPLE POST : RAILA GAON, BHILWARA 311024
105	074796	Mr. TIWARI RAMA SHANKER 111-A/129, ASHOK NAGAR (OPP. SANJIVANI BLOOD BANK), KANPUR 208012	116	075454	Mr. MISHRA BRIJENDRA KUMAR 117/391 'O' BLOCK GEETA NAGAR, KANPUR 208001
			117	075734	Mr. SABHARWAL GIRISH 3, ZILADHISH MARG, RAJPUR ROAD, DEHRADUN 243001

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
118.	075955	Mr. GAGGAR DEEN BANDHU 1 - SABUN MARG BHILWARA 311001	128.	076477	Mr. MANISH CHANDA SHAHEED GANJ, SAHARANPUR 247001
119.	075981	Mr. JAIN SURENDRA KUMAR 18, TARANI COLONY DEWAS 455001	129.	076566	Mr. BHANDARI DEEPAK PLOT NO. 585 ROAD 9TH 'B', SARDARPURA, JODHPUR 342006
120.	075988	Mr. JAIN MUKESH 53 CHHATRAPATI NAGAR AERODROME ROAD, NEAR AGRASEN NAGAR, INDORE 452001	130.	076568	Mr. MEHTA MANEESH 13/8 SOUTH TUKOGANJ, INDORE 452001
121.	076089	Mr. SINGH AMIT 8 VIDHYA BHAWAN SCHOOL, UDAIPUR 313001	131.	076595	Mr. GUPTA ASHOK KUMAR C-2 ARIHANT COMPLEX, NAHARGARH ROAD, JAIPUR 302001
122.	076197	Mr. PAREEK MANOJ KUMAR PLOT NO. 30 KALYAN COLONY TONK PHATAK, JAIPUR 302015	132.	076652	Mr. DINESH KUMAR CHOUDHARY 201, USHA NIKETAN D NO 76, GHIYA MARG, BANI PARK, JAIPUR 302001
123.	076203	Mr. CHOUDHARY SUNIL 111, PRAGATI CHAMBER 34/3, MURAI MOHALLA, INDORE 452001	133.	076671	Mr. SRIVASTAVA ARAD SHEKHAR FLAT NO. 64, 6TH LOOR, PANCHAWATI APARTMENT, 8/60, ARYA NAGAR, KANPUR 208 011
124.	076205	Mr. BHAGAT GIRJESH KUMAR 55/57 KAHOOKOTHI SARIKA HOTEL BUILDING, KANPUR 208001	134.	076691	Mr. CHATURVEDI NIKHIL KUMAR LOK NIWAS LOK MANGANJ, CHARBAGH, LUCKNOW 226019
125.	076321	Mr. VERMA BHANU PRAKASH FINANCE MANAGER NCL DUDHICHUA PROJECT, 90 KHADIA, SONEBHADRA 231222	135.	076692	Mr. GUPTA VIJAY KUMAR HOUSE NO 62 B 2/B 99 GAIL VIHAR, SECTOR 23, DISTT G B NAGAR, NOIDA 201301
126.	076420	Mr. AGARWAL SANJEEV KUMAR 15 PRATAP NAGAR TONK PHATAK, JAIPUR 302015	136.	076779	Mr. KASHYAP MUKESH KAUSHIK CHAMBER STATE BANK ROAD, KEWARAMUNA WARD, JAGDALPUR, TEH. JAGDALPUR (CHATTISGARHA), BASTAR
127.	076440	Mr. JAIMINI SATYA NARAYAN C/O BHANWAR MOORTI ART 1933, KHAZANE WALON KA RASTA, MISHRA BHAWAN KI GALI, CHANDPOLE BAZAR, JAIPUR 302001			

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
137	076786	Mr. PAVECHA AJAY 23 AJANTA TALKIES ROAD, RATLAM 457001	148.	077330	Mr. KEDAWAT SAILESH RAJ 497-98 KEDAWAT HOUSE KISHAN POLE BAZAR NAMAK KI MANDI JAIPUR 302001
138	076840	Mr. KAMLE MANOJ SURESH DAL BAZAR, GWALIOR 474001	149.	077382	Mr. KALL DINESH KUMAR 115 IIND FLOOR BAPU BAZAR, UDAIPUR 313001
139	076866	Mr. JAIN SANJAY KUMAR B-34 SHAKTI NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR 302018	150.	077423	Mr. JAIN RAKESH KUMAR 165 SCHEME NO 4 RAJENDRA NAGAR, ALWAR 301001
140.	076871	Mr. SALUJA RAJPRIT SINGH 118/5 KAUSHALPURI GUMTI NO.5, KANPUR 208012	151.	077427	Mr. AMIT KUMAR NORTH CIVIL LINES JANSATH, MUZAFFARNAGAR 251314
141	076881	Ms. SRIVASTAVA ARCHANA FLOT NO 64, 6TH FLOOR PANCHWATI APARTMENTS, 8/60, ARYA NAGAR, KANPUR 208001	152.	077440	Mr. SAINI SURESH KUMAR 66/309 HOOLA GANJ KANPUR 208001
142	076914	Mr. GUPTA SANJAY 71/4 MADHYAM MARG MANSAROVAR, JAIPUR 302001	153.	077614	Mr. SINGH SRINIWAS 54/9 NAYAGANJ KANPUR 208001
143.	077033	Mr. PARMAR SANJAY 70 INDRALOK COLONY, KESARBAGH ROAD, INDORE 452009	154.	077655	AJMERA DINESH NEAR DEV NARAYAN TEMPLE BEHIND MIDDLE SCHOOL, AZAD NAGAR PUR ROAD, BHILWARA 311001
144	077062	Mr. JAIN AMIT KUMAR C-41 COLONY NO 1 J K WHITE CEMENT WORKS, NAGPUR, GOTAN 342902	155.	077719	Mr. JAJODIA NILESH KUMAR 4, MANGAL COLONY DEVANSH GAYATRI NAGAR, AJMER ROAD, DIST AJMER, BEAWAR 305901
145.	077185	Mr. MALHOTRA RAJIT 264-B, GANGA APARTMENTS SECTOR-29, NOIDA 201301	156.	077757	Mr. JAIN AMIT C/O MR N K JAIN 56 CHAM CHAND ABOVE ADARSH VIDYALAYA NEAR JAIN TEMPLE ZERO ROAD, ALLAHABAD 211003
146.	077186	Mr. JAIN NILESH 554 KHATIWALA TANK, INDORE 452001	157.	077785	Mr. DASS PRAJA PATI SARAN A-7MADHO RAM BUILDING 4 RAIPUR ROAD, DEHRADUN 248001
147	077322	Mr. PARAKH RAJESH DELOITTE & TOUCHE P O BOX 990, ABU DHABI UAE			

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
158.	077803	Mr. BHATT KAMLESH KUMAR 1/9 KISHANGANJ BEAWAR 305901	169.	078612	Mr. AGARWAL VINEET C-14 A C C COLONY C/O M C AGARWAL (MINES) PO JAMUL CEMENT WORKS, DIST DURG, BHILAI 490024
159.	077814	Mr. MISHRA SHASHI CHANDRA RAMA KUNJ SARMERA KOTHI, JAMAL ROAD, PATNA 800001	170.	078715	Mr. PUNJABI KISHAN LAL INDRA COLONY NEEM KA THANA SIKAR 332713
160.	077838	Ms. HAJRA SRIRUPA D-193 SECTOR - 49, NOIDA 201301	171.	078760	Ms. MALIK NONAH 14/11, ALKAPURI OPP. CIRCUIT HOUSE, ALLAHABAD 211001
161.	077855	Mr. MEHTA AMIT 497 - 98, NAMAK KI MANDI, KISHAN POLE BAZAR, JAIPUR 302001	172.	078892	Mr. BHATIA ANIL 4, RADHA GOBIND STREET THARPAKNA, RANCHI 834001
162.	077931	Mr. VARSHNI VIPUL SATYA SHAPATH 1ST FLOOR, 9/I, EDMONSTONE ROAD, CIVIL LINES, ALLAHABAD 211001	173.	078940	Mr. GUPTA PRAMOD KUMAR C/O RAM VISHAL GUPTA 88, VINDHWASHINI NAGAR, ORDALY BAZAR, VARANASI 221002
163.	077940.	Mr. GUPTA ROHIT 5/3, BENI BAZAR E C ROAD, DEHRADUN 248001	174.	078982	Mr. JHA PRANAV KUMAR FLAT NO. M-1 TISCO OFFICER'S COLONY DIGWADIH NO 12, P O - JAELOGORA, JHARKHAND, DHANBAD 828 110
164.	078068	Ms. SINGHI NEELU 413/39, OUTSIDE OF BHANDARA GALI, NALLA BAZAR, AJMER 305001	175.	079018	Mr. GUPTA VIKAS GUPTA BHAWAN RAM NAGAR COLONY, SHASTRI NAGAR, JAIPUR 302016
165.	078141	Mr. JAISWAL SANTOSH C/O RAM NARAIN & CO. 32/41 GARG CLOTH MARKET, GHUMNI BAZAR, KANPUR 208001	176.	079024	Mr. PODDAR SANDEEP 8, HIG, SANGAMVIHAR SONARI, JAMSHEDPUR 831011
166.	078355	Mr. AGARWAL MANISH 155 GHEE MANDI NADAR GATE, AJMER 305001	177.	079033	Mr. MEI WAL PREM SHANKER RADHA BIHARI BHAWAN OPP LAXMI SEC. SCHOOL, SAKATPURA, KOTA 324008
167.	078422	Mr. AGRAWAL NITIN MOHAN R-5/95 RAJ NAGAR GHAZIABAD 201000	178.	079096	Mr. KAKRA GOVIND KUMAR 194 SMRITI NAGAR CHHOTI BANGRDA ROAD, AIRPORT ROAD, INDORE 452005
168.	078511	Mr. SHWETANK BHUSHAN 2ND FLOOR KRISHNA BUILDINGS, S P VERMA ROAD, PATNA 800001			

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
179.	079110	Mr. AHUJA MANOJ KUMAR 16/985, OPP. DIGJAM RETAIL SHOW ROOM, JIVAN BIMA MARG, PANDRI, RAIPUR	190.	079409	Mr. BOTHRA PRAMOD 1ST FLOOR, DHANRAJ COMPLEX, MAIN ROAD, BALAGHAT 481001
180.	079128	Mr. JAIN LALIT 106 HIRAN MAGRI SECTOR - 11, UDAIPUR 313002	191.	079454	Mr. GOYAL DEVESH NAND KISHORE 91 TILAK NAGAR EXTN. NR. SHEWATEMBER TEMPLE, INDORE 452001
181.	079133	Mr. GOYAL RAJESH 394 SHOPPING CENTRE KOTA 324007	192.	079457	Mr. PANDEY SHIVASHISH TEXMACO ENGINEERING GROUP GEDUNG SENTRA MULIA SUITE 1001, J1, HRRASUNA SAID KAV, X-6 NO 8, JAKARTA 12940 INDONESIA
182.	079165	Mr. VINAYA KUMAR 3/137 M I G VIKAS NAGAR, LUCKNOW 226022	193.	079459	Mr. JINDAL AMIT SA.18/4 SHASTRI NAGAR GHAZIABAD 201001
183.	079235	Mr. GUPTA RAJESH III A/118/16 NEHRU NAGAR, GHAZIABAD 201001	194.	079471	Mr. NARSARIA SHYAM KUMAR H. B. ROAD RANCHI OPP LALPUR THANA RANCHI 834001
184.	079240	Mr. PRAJAPAT MANOJ KUMAR 24 NORTH YASWANTGANJ MALHRAGANJ, OPP LAXMI BUILDING, INDORE 452002	195.	079579	Mr. RAMESH CHAND C/O M/S GAJENDRA KUMAR & BROS RAMA MARKET, BHARATPUR 321001
185.	079273	Mr. SAXENA SHYAM MOHAN II-F-90 NEHRU NAGAR GHAZIABAD 201001	196.	079668	MANGAL MUKESH C/O MR P M MANGAL 49 A MANGAL KUNJ, SHRIRAM MARG PAL ROAD, JODHPUR 342 003
186.	079326	Mr. BHATNAGAR AVNISH 498/1 LANE NO. 9 NEW NEHRU NAGAR, MEERUT 250002	197.	079706	Mr. BETALA ARVIND 11 USHAGANJ CHHAWWANI, INDORE 452001
187.	079336	Mr. GOYAL AKSHAYA 46 SATKAR SHOPPING CENTRE MALVIYA NAGAR, JAIPUR 302017	198.	079719	Mr. AGARWAL BIJAY KUMAR C/O M/S SHANTI CEMENT PVT LTD 9/1 ASHIANA TRADE CENTRE, ADITYAPUR, JAMSHEDPUR 831 013
188.	079338	Mr. BAHETI SHAMBHOO C/O B L BAHETI LAL PYAU PAREEK COLLEGE ROAD BANI PARK, JAIPUR 302006	199.	079790	Mr. MAHESHWARI AKSHAY 202-203 MORYA SHREE 41 SRINAGAR EXT, INDORE 452001
189.	079349	Mr. ROY KAUSHAL KISHORE C/O SRI JAI GOPAL RAI NEW OKNI, NEAR TANK, HAZARIBAGH 825301			

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
200.	079841	Mr. ASTHANA ASHISH 104, CITI HOTEL COMPLEX B. N. ROAD, LAL BAGH, LUCKNOW 226 001	211.	081886	Mr. AGARWAL HARISH D-7, RAMPRASTHA, GHAZIABAD 201001
201.	079883	Mr. AGARWAL DHARAM VEER 117/484 Q BLOCK SHARDA NAGAR, KANPUR 208001	212.	082163	Mr. SETH ANIL G KALIKA RANIKHET, UTTRNCHAL, ALMORA 263692
202.	079909	Mr. RAMANI GOVIND 44/7 SHRADHANAND MARG CHAWNI MAIN ROAD, UCO BANK SQUARE, INDORE 452001	213.	082174	Mr. SACHDEV SURINDER NATH C/O RISHI DEVI GUPTA 238, AWAS VIKAS COLONY, SHSHNI GATE, ALIGARH 202001
203.	079911	Mr. DAGA AMIT 26 NEHRU PARK DAGA BHAWAN, JODHPUR 342001	214.	082300	Mr. SURENDRA KUMAR 20/3 SHARMA MARKET HAROLA, SECTOR 5, NOIDA 201301
204.	079927	Mr. GANDHI SACHIN KUMAR 175 VISHNUPURI ANNEX A B ROAD, INDORE 452017	215.	082371	Mr. JAIN NEM CHAND C/O SHIVA AUTOMOBILES NR JUDGES COURT, NAINITAL ROAD, BHOTIA PAROW, HALDWANI 263139
205.	079936	Mr. AGARWAL SANJAY 17/G/312 VASUNDHARA GHAZIABAD 201010	216.	082477	Mr. ASHOK KUMAR MANAGER (F&A) ONGC TEL BHAWAN, DEHRADUN 248003
206.	079937	Mr. RASTRANAYAKA ANURAG C-39 SWARN VIHAR SONARI, JAMSHEDPUR 831011	217.	082678	Mr. SACHDEVA RAKESH C/O M/S R.SACHDEVA & ASSOCIATES 1376, SECTOR-37, UP, NOIDA 201303
207.	079975	Mr. JAIN DAULAT RAJ A/292 SHASTRI NAGAR, JODHPUR 342003	218.	082779	Mr. BHARGAVA SHIV KUMAR 4 BANK, COLONY, ALWAR 301001
208.	080237	Mr. VASUDEVAN T FLAT NO 24-C, NILGIRI-1, SECTOR-34, NOIDA 201307	219.	083630	Mr. PODDAR GIRISH CHANDRA FLAT NO 16 "SHREE KUNJ", BUDHA COLONY, PATNA 800001
209.	080957	Mr. MAHESWARY RAM SWAROOP 135 RATAN DEEP COMPLEX IST FLOOR, CIVIL LINES BAREILLY 243001	220.	083697	Mr. MAHENDER SINGH D-211 RAMPRASTHA GHAZIABAD 201011
210.	081721	Mr. RAKESH KUMAR C-67, SECTOR - 41 NOIDA 201303			

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
221.	084818	MR. AGARWAL RAJEEV A-247, SECOND FLOOR SECTOR-19, NOIDA 201301	231.	088031	Mr. ATUL KUMAR 556, DAYANAND MARG, FIROZABAD 283203
222.	085065	Mr. MAHADEV PRASAD 51C MOORTI KALA COLONY TONK ROAD, JAIPUR 302018	232.	088103	Mr. SANDEEP KUMAR 105 NAI BASTI NEAR GHANTAGHAR, GHAZIABAD 201001
223.	085765	Mr. KHULLAR RAKESH KUMAR PLOT NO 100 SECTOR -5 T.H.A. RAJENDRA NAGAR, GHAZIABAD DISTT, (U.P.), SAHIBABAD 201005	233.	088811	Mr. GIRIDHAR RAJU K SR. CONSULTANT HCL INFOSYSTEMS LTD., A 10-11 SECTOR 3, NOIDA 201301
224.	085806	Mr. MURARKA TARUN E-39, SECTOR 55 NOIDA 203001	234.	089095	Mr. BAKSHI VIKRAM 17/D-425 VASUNDHARA, GHAZIABAD 201012
225.	086109	Mr. SINGH HARI PAL 30, KRISHNA SAHKARI AVAS SAMITI GANDHIPURAM (NEAR HANUMAN MANDIR), IZZATNAGAR BAREILLY 243 001	235.	089299	Mr. SHARMA MAN MOHAN 21 IST FLOOR NIRIKSHAN BHAWAN, CIVIL LINES, ROORKEE 247667
226.	086144	Mr. SHARMA VINOD KUMAR C-85, SECTOR 2, NOIDA 201301	236.	089372	Mr. GUPTA MAHENDRA KUMAR 13/392, MANIK CHOWK UP, ALIGARH 202001
227.	087224	Mr. INDRESH KUMAR C-2 SECTOR 20, NOIDA 201301	237.	089427	Ms. AMRITA G SINGH 26-F BLOCK B INNOTECH TOWER 235 NANDING ROAD, HELPING DISTRICT, TIANJIN, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA CHINA
228.	087342	Mr. VINEET KUMAR 0-4 1ST FLOOR SHARMA MARKET ATTA SECTOR 27, NOIDA 201301	238.	089796	Mr. AGRAWAL SANJAY 110 SARAOGI MANSION M I ROAD, JAIPUR 302001
229.	087424	Mr. ANIL KUMAR ABDIN HOUSE FRASER ROAD, PATNA 800001	239.	090009	Mr. NANDA CHANDRA KUMAR 16 EKATMA PARISAR RAJBAND MAIDHAN, G E ROAD, RAIPUR 492001
230.	088013	MR. NARAIN JAI PRAKASH P.O. BOX 1000 DOHA, QATAR	240.	090019	Mr. AGARWAL PRAVEEN KUMAR 11/765, VASUNDARA GHAZIABAD



Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
241.	090339	MR. SHARMA VINOD KUMAR H.NO. 12/14, CHOTIA HOUSE, NEAR POLICE STATION, JHUNHUNOO, PILANI 333031	251.	094722	Mr. SINGH UMESH PRASAD SHAKUNTALEYA NIWAS VIKAS NAGAR, LATMA ROAD, (SINGHMORE), RANCHI 834003
242.	090388	Ms. JAIN SIMMI C 2 SECTOR 20, NOIDA 201301	252.	094789	Mr. VAISH UMESH KUMAR 1136 GOLAGHAT ABOVE AVANTIKA TYRES, SULTANPUR 228001
243.	090744	Mr. AGGARWAL LALIT HCL COMNET LIMITED A-10/11, SECTOR-3 NOIDA 201301	253.	094969	Mr. BALLYAN YOGENDRA SINGH B-14 251HIMGIRI APARTMENTS SECTOR 34, NOIDA 201301
244.	090921	Mr. SURINDER KUMAR L-61 SECTOR :11 NOIDA 201301	254.	095026	Mr. JAIN VIJENDER KUMAR 88 SHRI RAM NAGAR COLONY BEHIND N.E.B. HOUSING BOARD, (RAJSTHAN), ALWAR 301001
245.	091290	Mr. PANDEY GHAN SHYAM IIB- B 137, VAISHALI, GHAZIABAD 201001	255.	096054	MR. HARISH KUMAR ADARSH TENT HOUSE DIWAN KA BAZAR, (U.P.), MORADABAD 244001
246.	091561	Mr. RAMAKANT PAREEK SWASTIK OIL INDUSTRIES (P) LTD K. L. DUGAR GROUP, MAIN ROAD, BIRAT NAGAR NEPAL	256.	096358	Mr. TRILOK CHAND 3RD FLOOR D/1 SECTOR 18, OPP EBONY, NOIDA
247.	092469	Mr. RAJ PRAKASH KHARE D-149, PANCHWATI APARTMENTS PLOT NO. B-9/9, SECTOR - 62 NOIDA 201301	257.	096396	Mr. SINGH BIMLESH KUMAR D-133 SECTOR-20, NOIDA 201301
248.	092784	Mrs. CHANDA POONAM 14-A, BHAGAT SINGH COLONY HAKIKAT NAGAR, SAHARANPUR 247001	258.	096454	Mr. JAIN VIKAS K-140, NEW KAVI NAGAR, GHAZIABAD 201002
249.	093781	Mr. UPADHYAYA NAVEEN PATANI HOME G I C ROAD, UTTRANCHAL, PITHORAGARH 262501	259.	096709	Mr. KARN SATISH KUMAR C/O APACHH KUMAR YADAV POST BOX NO 10269, G P O KATHMANDU, KATHMANDU NEPAL
250.	094467	Mr. RATHKE SHARAD C-35 SECTOR-40 UTTAR PRADESH, NOIDA 201 303	260.	096866	Mr. RASTOGI SURYA KANT 14, HEERA MARKET HARPUR 245101

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
261.	096952	Mr. JAIN ANUPAM C/O SRI MAHESH CHANDRA JAIN ADVOCATE, KOTLA ROAD, FIROZABAD 283203	270.	098669	Ms JAIN RITU HCL TECHNOLOGY LTD. A-10 & 11, SECTOR-3, NOIDA 201301
262.	097058	Mr. SHARDA SUJEET 302/18, 18, CIVIL LINES NEW HARIDWAR ROAD, DISTT. ROORKEE, ROORKEE	271.	099269	Mr. SRIVASTAVA MANISH B-605 OCR COMPLEX VIDHAN SABHA MARG, LUCKNOW 226001
263.	097083	Mr. BALDI RAJESH 1A-22 R C VYAS COLONY NEAR RAJIV CHOUHRA, (RAJASTHAN), BHILWARA 311001	272.	099854	Mr. JHA ASHOK KUMAR E-28, SECTOR -30 NOIDA 201303
264.	097194	Mr. VASOOJA SATISH KUMAR A-41, SECTOR-39 NOIDA 201305	273.	099862	Mr. PORWAL ALOK H NO. 182, KALI DEVI ROAD MAHAVIR GANJ, AURAIYA 206122
265.	097757	Mr. RAVINDRA KUMAR H. NO. 584 SECTOR 29, NOIDA 201301	274.	100960	Mrs. KYAL DIMPLE UL-23A, 1ST FLOOR AMBER TOWER, SANSAR CHANDRA ROAD, JAIPUR 302001
266.	098033	Mr. SINGH AMREEK C/O DR. SANGAT SINGH M S M IQBALPUR, TEH ROORKEE, DISTT HARIDWAR, ROORKEE 247668	275.	103204	Mr. AGARWAL MANOJ SATYANARAYAN SHREE GANESH BHANDAR SARAIYAGANJ, MUZAFFARPUR 842001
267.	098144	Mr. DUBEY AMIT KUMAR JAI PRAKASH INDUSTRIES LTD. TAXATION DEPARTMENT, 64/4, SITE-4, INDUSTRIAL AREA (DISTT GZB), SAHIBABAD	276.	103268	Mr. SISODIA RAJESH HEMANT KUMAR S/O H.K. SISODIA CENTURY PULP & PAPER, LALKUA, NAINITAL 262402
268.	098313	Ms RACHANA C/O ASHUTOSH SADAN KALIDAH DUSAIT CHORAH, OPP. VONMAHARAJ TEMPLE, MADAN MOHAN GHERA, VRINDABAN, MATHURA	277.	103451	Mr. ANIL KUMAR POKHARNA VIPUL HOUSE NEAR KALPTRARU HOSPITAL 155, SECTOR NO. 3, HIRAN MARGI, UDAIPUR 313 002
269.	098565	Mr. AGARWAL MUKUL STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD SAIL/BOKARO STEEL PLANT, BIHAR, BOKARO 827001	278.	105429	Mr. BIRLA PRAKASH ADA BAZAR PHOPHALIYA STREET, JODHPUR 343001
			279.	105557	Mr. TOSHNIWAL VINOD KUMAR GOKUL, RAI JI MORA STREET TOSHANIWALON KA NOHERA, BHILWARA 311001
			280.	105988	Mr. AMIT GOYAL D-25, BAPU NAGAR, GANESH MARG, JAIPUR

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
281.	108776	Mr. JAIN MANISH KUMAR S/O SHRI JAMBU KUMAR JAIN RANWKA GALI, SARAGI MOHALLA, BEAWAR 305901	290.	400031	Mr. JEJANI AMIT KUMAR SARASWATI MARKET UPPER BAZAR, RANCHI 834001
282.	110644	Mr. RATHI ASHISH N K RATHI 316, JAIRAM COMPLEX SHARDA CHOWK, RAIPUR 492001	291.	400053	Mr. JAIN ANIL KUMAR 21 BASANT NAGAR MALL ROAD, NEAR CHRIST CHURCH, MORAR, GWALIOR 474006
283.	111321	Mr. SANJAY KUMAR JAIN D/86 SECTOR - VI DEVENDRA NAGAR, RAIPUR 492002	292.	400104	Mr. GUPTA SHYAM LAL 61 NATANI BHAWAN INDIRA COLONY, ALWAR 301001
284.	113161	Ms SWETA PRAKASH NALWAYA P-519 SECTOR 21 JAL VAYU VIHAR, NOIDA 201301	293.	400110	Mr. AGRAWAL AKHIL M/S REFERRON MAIN ROAD, (JHARKHAND), CHAKRADHARPUR 833102
285.	201558	Mr. KRISHNAN L C/O SHRI MATHEW ABRAHAM R-3, ROYAL RESIDENCY, BICHOLI MARDANA ROAD, INDORE 452 001	294.	400168	Mr. SHARMA KANHAIYA LAL C/O SHRI RAVINDRA KUMAR SHARMA PURANA BAZAR, POST & VILLAGE JOBNER, JAIPUR 303328
286.	203728	Ms SHANTHI SRIKANT CANARA BANK REGIONAL OFFICE, BLOCK III PARYAVAS BHAVAN, AVERA HILLS, BHOPAL 462011	295.	400235	Mr. SHARMA VIVEK C/O VIRAJ HOSPITALS DIVERSION ROAD, KHARGONE 451 002
287.	206127	Mr. SUDARSHAN SARMA P S ASSOCIATE CONSULTANT POLARIS SOFTWARE LAB LIMITED B-19, SECTOR 2, GAUTHAM BUDH NAGAR, NOIDA 201301	296.	400389	Mr. RAWKA ABHISHEK KUMAR RAWKA SADAN F/11 MIG RISHI NAGAR COLONY, UJJAIN 456010
288.	207446	MR. RAJEE P FINANCE OFFICER, FINANCE & A/CS. DEP VIKAS BHAWAN, KORBA SUPER THERMAL, POWER STATION, N.T.P.C. LTD., JAMNIPALLI (M.P.), KORBA 495450	297.	400400	Mr. RAY HARE RAM 173-A NEW PROFESSIONAL FLATS K S LINK ROAD, KADMA JAMSHEDPUR 831005
289.	400000	Mr. AGRAWAL AMIT KUMAR 101, ROYAL ESTATE 9/2, SOUTH TUKOGANJ, INDORE	298.	400410	Mr. GUPTA JUGGI LAL C/O RAJENDRA PRASAD GUPTA PODDAR PARA, DIST. DHANBAD, JHARIA 828111
			299.	400457	Mr. AJAY KUMAR 163/6 BABUPURWA, KIDWAI NAGAR, KANPUR 208011

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
300	400542	Mr. SHUKLA YASHVARDHAN 111/ A/79 ASHOK NAGAR KANPUR 208012	311	400818	Mr. GUPTA ASHISH KUMAR D-189 A MANGAL MARG BAPU NAGAR, JAIPUR 302001
301	400589	Ms SINGH PRIYANKA B-65, SECTOR -J RAIL NAGAR, JAIL ROAD, LUCKNOW 226012	312	400871	Mr. PANDEY DEEPAK F-10 A 11, KHUSHNUMA COMPLEX, 7 R F BAHADUR MARG, NEAR STATE GUEST HOUSE, LUCKNOW 226001
302	400679	Ms JAIN ALPA A-4 KRISHNA NAGAR IST GANDHI NAGAR CROSSING TONK ROAD, JAIPUR 302001	313	401101	Mr. JAIN SANJAY KUMAR S/O SRI SAMPAT LAL JAIN POST NAVANIA, VIA VALLABHNAGAR, DIST UDAIPUR, UDAIPUR 313601
303	400694	Mr. JAIN TANUJ RAEN BASERA 12-A RAM SINGH NEAR INFORMATION CENTRE, JAIPUR 302004	314	401140	Mr. ARORA ROHIT L.I.G. 26 RATAN LAL NAGAR KANPUR 208022
304	400695	Mr. GOYAL VISHAL 14/1 NEW PALASIA INDORE 452001	315	401228	Mr. BOHRA AZIZ 98, IBRAHIM MANZIL LOHA BAZAR, UDAIPUR 313001
305	400717	GARG MOHIT 28/355-A GUDRI MANSOOR KHAN, AGRA 282003	316	401245	Mr. JAIN MANISH V KESLIWALA NIVAS RADHA BALLABH WARD, CINEMA ROAD, KARELI, NARSINGHPUR 487221
306	400724	Mr. S R KUMARAN MS - 83, SECTOR - D ALIGANJ, LUCKNOW 226001	317	401296	Mr. BANSAL RAVINDRA A-19/ TOWER-2 SAHYOG APARTMENTS SECTOR-6 VIDYADHAR NAGAR JAIPUR 302012
307	400741	Mr. AGARWAL NAND KISHORE S-52, 52 AGRASEN TOWER CENTRAL SPINE, VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR	318	401366	Ms SINGHVI SHWETA 15 COSMO COLONY VAISHALI NAGAR, AMRAPALI ROAD, JAIPUR 302001
308	400760	Mr. JAJODIA NITIN 4 MANGAL COLONY GAYATRI NAGAR, AJMER ROAD, BEAWAR 305901	319	401532	Mr. LOHIA ROHIT C/O R K MARKET BATERGANJ, LAHERIASARAI, DARBHANGA 846001
309	400764	Mr. JAGETIYA RAM SAHAY BEHIND BAZAR NO. 2 BHOPAL GANJ, BHILWARA 311001	320	401604	Mr. MAHARISHI SHANDILYA B-2127 INDIRA NAGAR, LUCKNOW 226016
310	400779	Mr. DIKHANI VIJAY KUMAR 183/6-A, MOTI NAGAR, QUEENS ROAD, JAIPUR 302021	321	401693	Mr. AGRAWAL PRADEEP KUMAR 4-VIDYUT ABHIYANTA COLONY MALVIYA NAGAR, JAIPUR 302017


Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
322.	401802	Mr. GOYAL PRATEEK 86 ANAND NAGAR, UNIVERSITY ROAD, UDAIPUR 313001	327.	402059	Mr. ANCHLIA ABHISHEK 40-B INDRAPRASTHA COMPLEX NEAR DELHI GATE, UDAIPUR 313001
323.	401834	Mr. DHARMAWAT MAHESH KUMAR 251, 1ST FLOOR BAPU BAZAR, UDAIPUR 313001	328.	402071	Mr. GARG UMESH 118/10 CIVIL LINES AJMER 305006
324.	401948	Mr. AVANINDRA BHUSHAN PRASAD C/O Mr. RAJIVA RANJAN PRASAD NEW NAGRA TOLI, RANCHI 834001	329.	500134	Mr. GUPTA AMIT KUMAR WB-115, PHASE-III SHOPPING COMPLEX, RAJASTHAN, BHIWADI 301019
325.	401958	Mr. MANTRI ABHISHEK C/O MANTRI IRON TRADERS BLUE CASTLE PADAW, AJMER 305001	330.	500815	Ms SHARMA ADITI POOJA PRINTING PRESS STATION ROAD, ZILA BIJNORE (U.P.), DHAMPUR 246761
326.	401996	Mr. MANGAL MOHIT D-114 SBI OFFICERS FLAT HASANPURA, KHATIPURA ROAD, JAIPUR 302006			

  
(DR. ASHOK HALDIA)  
SECRETARY

The 14th December 2004

3CCA(4) (2)/2003-2004 : In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of Death with effect from date (s) mentioned against the names of the following Members :-

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Date	Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Date
1.	003795	Mr. MISHRA PANDHARINATH JASWANT MANSION VIR SAVARKAR MARKET 27 BAXI GALI INDORE - 452004	05/05/2003	8.	073161	Mr. BANSAL YOGENDRA 278 ZONE II MAHARANA PRATAP NAGAR BHOPAL 462011	04/03/2003
2.	006432	Mr. PAREKH RASIKLAL KRISHNADAS 405, MORYA PALACE, 5/1 DIAMOND COLONY, INDORE 452 001	29/12/2002	9.	075569	Mr. BARDIA MUKUL KUMAR M BARDIA & CO SHOP NO 10, IIND FL. CORPORATION MARKET NEAR JYOTI TALKIES JABALPUR 482002	21/05/2003
3.	007738	Mr. JAIN KHETMAL C-39 JYOTI MARG BAPU NAGAR JAIPUR 302015	13/06/2002	10.	084616	Mr. RASTOGI SHAILENDRA POCKET C-651 SARITA VIHAR NEW DELHI 110003	12/06/2003
4.	008592	Mr. SABU HARI NARAYAN GANDHI BHAWAN 14 PRINCE YESHWANT ROAD, INDORE 452004	16/04/2003	11.	085154	Mr. SUBHASH CHAND 112/IV IST FLOOR GANGA SHOPPING COMPLEX SECTOR 29 NOIDA 201301	02/06/2003
5.	010140	Mr. BHARGAVA VISHVESHWAR NATH M/S SINGHI & CO 1 PAREEK COLLEGE ROAD BANI PARK JAIPUR 32006	08/05/2003				
6.	010828	Mr. JAIN BASNTILAL KARULAL B K JAIN & CO 410 JAWAHAR MARG SHANKAR SADAN INDORE 452004	14/03/2003				
7.	072758	Mr. AGRAWAL PRADEEP INDIAN OIL CORPORATION LTD MATHURA REFINERY MATHURA 281005	11/01/2003				



(DR. ASHOK HALDIA)  
SECRETARY

New Delhi-110002, the 20th December 2004

No. 1-CA(7)/80/2004

Vide Notification No. 1-CA(7)/56/2001 dated 10<sup>th</sup> May, 2001 and in pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India had notified the setting up of a branch of Northern India Regional Council at Panchkula with effect from 1<sup>st</sup> May, 2001.

In terms of the power vested in the Council under the Direction No. 53 of the Directions of the Council regarding functions of branches Regional Councils, (as contained in Appendix No. 7 of the Chartered Accountants Regulations 1988), read with the provisions of Regulation 159, the Council decided to ~~denotify~~ the setting up of the Panchkula Branch of Northern India Regional Council, with effect from 16<sup>th</sup> September, 2004. Accordingly, the Notification referred to above is hereby withdrawn.

Dr. Ashok Haldia,  
Secretary

No. 1-CA(7)/ 81/2004

In partial modification of earlier Notification bearing No. 28-RC/(4)/15/87 dated 6-4-1987 and also in pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulation, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify under Regulation 159 that **Ramgarh Cantt.** is placed under the jurisdiction of Ranchi Branch of the Central India Regional Council, with immediate effect.

Dr. Ashok Haldia,  
Secretary

**PHARMACY COUNCIL OF INDIA****(Constituted under the Pharmacy Act'1948)****TELEGRAM : 'FARMCOUNCIL'****TELEPHONE : 2323 91 84****2323 13 48****FAX NO. : 11-23239184****Combined Councils' Building,****Temple Lane, Kotla Road,****Aiwan-E-Ghalib Marg,****Post Box No. 7020,**


Ref.No.15-42001(Pt.A.)-PCI/

The following "Executive Order" passed by the Pharmacy Council of India in its 73<sup>rd</sup> meeting of the Central Council held on 24<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup> September, 2004 is published hereunder as required under section 15-A (4) of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948).

**"Executive Order"**

"As required under section 15-A (4) of the Pharmacy Act, 1948, the Pharmacy Council of India has compiled the data of registered pharmacists as received from the State Pharmacy Councils. The said data is kept in the office of the Pharmacy Council of India at the following address besides respective State Pharmacy Councils for reference of the public –

Pharmacy Council of India  
Combined Councils' Building  
Temple Lane, Kotla Road  
Aiwan-E-Ghalib Marg  
New Delhi – 110002."

**(ARCHANA MUDGAL)****Registrar-cum-Secretary**

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005